



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2010 (कार्तिक 29, 1932)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2010 (KARTIKA 29, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2010

सं. 618, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्रीमती अंजलि सिंह आई ए एवं ए एस (1996) को दिनांक 05 जुलाई 2010 (पूर्वाह्न) से 15 जनवरी, 2012 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्रीमती गीतांजलि गुप्ता कुन्दा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (1996) को दिनांक 01 जुलाई 2010 (पूर्वाह्न) से 20 अगस्त, 2012 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2010 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2010-सीएस-I (डी) के तहत वर्ष 2009 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची (भाग) में रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री एन. के. सरवाल का नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 01 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर इसी मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मूल आवेदन संख्या 1864/2009 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कोलकाता के समक्ष लम्बित सुश्री गरिमा सिंह बनाम भारत संघ और अन्य से संबंधित मामले में अंतिम आदेश के अधीन है।

राष्ट्रपति, विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री कुल भूषण नय्यर (सीएसएल सं. 6632) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-I (यू) की शर्तों के अंतर्गत, दिनांक 25 जून, 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड -I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

- (iii) उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित श्री पी आर शर्मा बनाम संघ सरकार के नाम से मूल आवेदन सं. 3294/2009 और श्री पी एस भंडारी बनाम संघ सरकार और अन्यो के नाम से मूल आवेदन सं. 2674/2009 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय में सम्पदा निदेशालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री गुरदीप सिंह मानकतहला (सीएसएल सं. 6508) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-1 (यू) की शर्तों के अंतर्गत, दिनांक 25 जून, 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड -I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- (iii) उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित श्री पी आर शर्मा बनाम संघ सरकार के नाम से मूल आवेदन सं. 3294/2009 और श्री पी एस भंडारी बनाम संघ सरकार और अन्यो के नाम से मूल आवेदन सं. 2674/2009 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री राजन कुमार झा (सीएसएल सं. 6426) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-1 (यू) की शर्तों के अंतर्गत, दिनांक 06 जुलाई, 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी की अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड -I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- (iii) उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित श्री पी आर शर्मा बनाम संघ सरकार के नाम से मूल आवेदन सं. 3294/2009 और श्री पी एस

भंडारी बनाम संघ सरकार और अन्यो के नाम से मूल आवेदन सं. 2674/2009 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित श्रेणी 'ग' आशुलिपिकों, जो इस समय रक्षा मंत्रालय में 9,300-34,800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए के संशोधित वेतन बैंड में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न हैं, की नियुक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक या नियमित निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, और आगे बढ़ाते हैं :--

नाम से तक

श्रीमती विजय नारंग, 01.07.2010, 31.12.2010

श्रीमती मरियम्मा जॉर्ज, 01.07.2010, 31.12.2010

अशोक कुमार, 01.07.2010, 31.12.2010

श्रीमती शक्ति बाला बक्शी, 01.07.2010, 31.12.2010

धर्मवीर, 01.07.2010, 31.12.2010

मो. गोहर हुसैन, 01.07.2010, 31.12.2010

राजेन्द्र प्रसाद, 01.07.2010, 31.12.2010

हरबंस लाल, 01.07.2010, 31.12.2010

अनिल कुमार, 01.07.2010, 31.12.2010

चन्द्र कुमार, 01.07.2010, 31.12.2010

राजबीर सिंह डबास, 01.07.2010, 31.12.2010

अशोक कुमार, 01.07.2010, 31.12.2010

श्रीमती उर्मिल गाबा, 01.07.2010, 31.12.2010

संजय महानी, 01.07.2010, 31.12.2010

वी. डी. शर्मा, 01.07.2010, 31.12.2010

जय इन्द्र राय, 01.07.2010, 31.12.2010

प्रमोद शर्मा, 01.07.2010, 31.12.2010

महेन्द्र कुमार, 01.07.2010, 31.12.2010

देवेन्द्र कुमार, 01.07.2010, 31.12.2010

2. तदर्थ नियुक्ति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव) के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की नियमित ग्रेड 'ग' आशुलिपिक श्रीमती ए. गंगा का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) (निजी सचिव) की वर्ष 2007 की चयन सूची

(वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 01.06.2010 से इसी मंत्रालय में सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) पद पर नियुक्त करते हैं।

के. मुरली
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 619, दिनांक 7 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन बनाया जाता है

एम जे के चतुरभाई टीए(एम)-1225, (ए. एम. सी. टीए), 28 फरवरी 2009 (एफ एन)

आर जे चौधरी टीए(एम)-1226, (ए. एम. सी. टीए), 28 फरवरी 2009 (एफ एन)

हिमांशु पंचल टीए(एम)-1227, (ए. एम. सी. टीए), 28 फरवरी 2009 (एफ एन)

जय राज
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 620, दिनांक 7 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

ले कर्नल बनाया जाता है

मेजर एस बी भागमारे टीए-42236, (रेलवे टीए), 01 अगस्त 2009

मेजर नरेन्द्र कुमार टीए-42245, (रेलवे टीए), 09 अगस्त 2009

मेजर एस के चौधरी टीए-42274, (रेलवे टीए), 29 मई 2010

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन के एस वर्मा टीए-42485, (रेलवे टीए), 27 सितम्बर 2008

कैप्टन डी सोमासुन्दरम टीए-42526, (ए. एस. सी. टीए), 11 मार्च 2010

कैप्टन ओम प्रकाश टीए-42535, (इन्जीनियर टीए), 22 अप्रैल 2010

कैप्टन ए अयप्पन टीए-42536, (इन्जीनियर टीए), 10 जून 2010

कैप्टन एम एस सी चौधरी टीए-42537, (इन्जीनियर टीए), 10 जून 2010

जय राज
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 621, दिनांक 8 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरेंद्र कुमार ठाकुर (जेसी-419203एम), 01 जून 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार होम बहादुर थापा (जेसी-420981के), 13 मई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अलक नाथ समंता (जेसी-421024एल), 17 अप्रैल 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार उदय सिंह (जेसी-421067ए), 04 जून 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जेसी-421087एन), 17 अप्रैल 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बेद सिंह (जेसी-420355ए), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार दिलावर सिंह (जेसी-420433एम), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-420576एम), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार सतया पाल सिंह (जेसी-420687के), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार इमामुद्दीन अहमद (जेसी-420812एच), 06 मई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार आदेश कुमार सिंह (जेसी-420512एफ), 13 मई 2010

नायब सूबेदार ओमना कुट्टन पिल्लई एस (जेसी-420681एच), 14 जून 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

सूबेदार मेजर (लिपिक) रैंक में

सूबेदार (लिपिक) प्रताप सिंह पाराशर (जेसी-419028एच), 01 जुलाई 2010

सूबेदार (लिपिक) रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) संतोष कुमार बेहरा (जेसी-420593एम),
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) राज कुमार (जेसी-420615ए),
12 जुलाई 2010 *

*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) अनिल कुमार गुप्ता (जेसी-420560एफ),
01 मई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) समीर कुमार मिश्रा (जेसी-420592के),
01 मई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) जाधव राजेंद्र राम राव (सं. 2594271एच अब जेसी-421599ए), 01 जुलाई 2010

हवलदार (लिपिक) जुग मोहन लाल यादव (सं. 14916101के अब जेसी-421600के), 03 जुलाई 2010 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) जगदीश प्रसाद (सं. 14914543के अब जेसी-421596एम), 02 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) जयपाल सिंह (सं. 14913823एल अब जेसी-421597पी), 07 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) रवि प्रसाद शर्मा (सं. 14915969एक्स अब जेसी-421598एक्स), 01 मई 2010

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वी एन सतीश कुमार (सं. 14917720के अब जेसी-421584एक्स), 08 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार के सिद्दीक (सं. 14915981वाई अब जेसी-421585ए),
27 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 14916170ए अब जेसी-421586एच),
15 अप्रैल 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार रामावतार (सं. 14915793एक्स अब जेसी-421587एल),
25 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार अटकारी वेंकटेश्वरलु (सं. 14917537एफ अब जेसी-421588एन), 01 अप्रैल 2010

हवलदार चंद्रा शेखर रामा कोली (सं. 14918780एल अब जेसी-421589डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार बरीया रायजी भाई सोना भाई (सं. 14915094एम अब जेसी-421590एल), 01 जून 2010

हवलदार दीपानकर डे (सं. 14915387एक्स अब जेसी-421591एन),
01 जून 2010

हवलदार राकेन्द्र सिंह (सं. 14916142एन अब जेसी-421592डब्ल्यू),
01 जून 2010

हवलदार बाल क्रिश्ना (सं. 14916703एक्स अब जेसी-421593वाई),
01 जून 2010

हवलदार लोकेन्द्र सिंह (सं. 14918576एम अब जेसी-421594एफ),
02 जून 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार के मेलीको राजन (सं. 14916905वाई अब जेसी-421595के), 01 जून 2010

जे राय चौधरी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 622, दिनांक 08 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार गोविन्दन सामी नारायणन (जेसी-143460के), 01 जुलाई 2010

सूबेदार इन्द्रजीत सिंह (जेसी-221097एन), 01 जुलाई 2010

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार अब्दुल रशिद (जेसी-592451ए), 01 मई 2010

नायब सूबेदार तीर्थ सिंह (जेसी-419159एन), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-239335एक्स), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार ओंकार नाथ मिश्रा (जेसी-261293डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार चन्दन गिरि गोस्वामी (जेसी-539244एम), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार बास राम जाट (जेसी-264475पी), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार राय (जेसी-180923एल), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार याम बहादुर थापा (जेसी-617075पी), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-220859के), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार याम बहादुर थापा (जेसी-612039डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार राज पाल (जेसी-428483एम), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जेसी-841490पी), 01 जुलाई 2010

स्थाई सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार हाकिम सिंह (जेसी-842029एल), 01 जुलाई 2010

स्थाई सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार दुराई राजु एस (जेसी-166275एच), 01 जून 2010

सूबेदार जयमाल सिंह सजवान (जेसी-166095ए), 01 जून 2010

सूबेदार परलाध सिंह दलपटिया (जेसी-216655ए), 01 जून 2010

स्थाई सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार परशोत्तम लाल शर्मा (जेसी-641996के), 01 मई 2010

नायब सूबेदार जिया लाल (जेसी-579166एच), 01 जून 2010

नायब सूबेदार जगरूप चन्द कटोच (जेसी-239484एल), 01 जून 2010

नायब सूबेदार सतीश कुमार शर्मा (जेसी-519363एफ), 01 जून 2010

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-412486डब्ल्यू), 01 जून 2010

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-529185एक्स), 01 जून 2010

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-519357एन), 01 जून 2010

नायब सूबेदार अमिन चन्द (जेसी-519623एफ), 01 जून 2010

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 623, दिनांक 8 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार मेजर रैंक में

सूबेदार भुवन चन्द्र भट्ट (जेसी-802519डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

सूबेदार योगेश चन्द्र (जेसी-802526एम), 01 मार्च 2010

सूबेदार सतीश चन्द्र (जेसी-802550एच), 01 मार्च 2010

सूबेदार प्रमोद कुमार के (जेसी-802562एक्स), 02 मार्च 2010@

@(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-802568वाई), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार तीरथ सिंह (जेसी-802572एफ), 01 अप्रैल 2010

सूबेदार दयाशंकर मिश्रा (जेसी-802403ए), 03 नवम्बर 2009@

सूबेदार सुरेश कुमार तिवारी (जेसी-802416एक्स), 10 नवम्बर 2009@

@(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार सतीश चन्द्र बड़थवाल (जेसी-802417ए), 01 जनवरी 2010

सूबेदार कोमल सिंह (जेसी-802509एम), 01 जनवरी 2010

सूबेदार यशपाल सिंह (जेसी-802368एच), 03 जुलाई 2009@

@(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार नृसिंह चरण पाढ़ी (जेसी-802383एक्स), 01 अगस्त 2009

सूबेदार राजपति यादव (जेसी-802388डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

सूबेदार प्रहलाद सिंह (जेसी-802389वाई), 01 अगस्त 2009

सूबेदार विजेन्द्र पाल सिंह (जेसी-802400एम), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार ग़बर सिंह बिष्ट (जेसी-802401पी), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार लाल जी उपाध्याय (जेसी-802415पी), 01 नवम्बर 2009

सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार विनाद कुमार त्रिपाठी (जेसी-803342ए), 27 अगस्त 2009\$

\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-803425एल), 01 अगस्त 2009*	नायब सूबेदार मत्ताई कुन्दू पी पी (जेसी-803580एम), 25 सितम्बर 2009\$
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार शिव शंकर प्रुस्टि (जेसी-803581पी), 01 अक्टूबर 2009\$
नायब सूबेदार रविन्दर पाल सिंह (जेसी-803527एफ), 27 मई 2009@	नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-803582एक्स), 01 सितम्बर 2009
@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र तिवारी (जेसी-803584एच), 01 सितम्बर 2009
नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जेसी-803550पी), 15 जुलाई 2009@@	\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार वीर पाल सिंह अहलावत (जेसी-803551एक्स), 01 जुलाई 2009	नायब सूबेदार प्रेम चन्द्र पाल (जेसी-803585एल), 01 अक्टूबर 2009
@@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-803587डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह राठोड़ (जेसी-803557वाई), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार/लिपिक मुन्नु लाल (जेसी-803647ए), 01 अक्टूबर 2009
नायब सूबेदार राजेश प्रताप सिंह (जेसी-803559के), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार चान्द सिंह (जेसी-803591वाई), 06 नवम्बर 2009##
नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-803560वाई), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार/लिपिक विजयराज सिंह बिष्ट (जेसी-803706एफ), 01 नवम्बर 2009
नायब सूबेदार शशि भूषण सिंह रावत (जेसी-803562के), 01 अगस्त 2009	##(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार कार्तिक चन्द्र पात्र (जेसी-803563एम), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार सत्य प्रकाश महापात्र (जेसी-803583ए), 01 सितम्बर 2009
नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-803564पी), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-803588वाई), 05 दिसम्बर 2009\$
नायब सूबेदार सकल देव सिंह (जेसी-803569एन), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार शशीन्द्रन वी के (जेसी-803592एफ), 03 नवम्बर 2009\$
नायब सूबेदार सूर्यनाथ यादव (जेसी-803570एच), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार छबील दास (जेसी-803595पी), 09 नवम्बर 2009\$
नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-803571एल), 17 अगस्त 2009**	\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)
नायब सूबेदार राजकुमार (जेसी-803572एन), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार देवेन्द्र पाल सिंह (जेसी-803599एल), 01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार नरेन्द्र पाल सिंह (जेसी-803573डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार/लिपिक सुनील कुमार शर्मा (जेसी-803718डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010
नायब सूबेदार पाटिल शिवाजीराव बाबुराव (जेसी-803575एफ), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार मुरलीधर पाण्डेय (जेसी-803600पी), 01 जनवरी 2010
नायब सूबेदार राज कुमार सिंह (जेसी-803576के), 01 अगस्त 2009	नायब सूबेदार ओम प्रकाश द्विवेदी (जेसी-803601एक्स), 01 जनवरी 2010
** (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह रावत (जेसी-803603एच), 01 जनवरी 2010
नायब सूबेदार सोने लाल (जेसी-803378वाई), 10 सितम्बर 2009#	नायब सूबेदार हेम सिंह (जेसी-803605एन), 01 जनवरी 2010
#(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अगस्त 2009 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार बजरंग लाल (जेसी-803607वाई), 01 जनवरी 2010
नायब सूबेदार देवांशु हाजरा (जेसी-803577एम), 01 सितम्बर 2009	नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह यादव (जेसी-803608एफ), 01 जनवरी 2010
नायब सूबेदार प्रेमजीत सिंह (जेसी-803578पी), 01 सितम्बर 2009	

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-803561एफ), 31 अगस्त 2009@
 @(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रबीन्द्र नाथ ठाकुर (जेसी-803586एन), 01 अप्रैल
 2010\$

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अक्टूबर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उमाकान्त बराल (जेसी-803596एक्स), 05 मार्च
 2010#

नायब सूबेदार लवकुश कुमार शर्मा (जेसी-803597ए), 18 जनवरी
 2010#

##(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार समिरन घोष (जेसी-803505एच), 31 दिसम्बर 2009&
 &(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 21 नवम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ब्रिज चन्द्र यादव (जेसी-803556डब्ल्यू), 15 फरवरी
 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ओंकार नाथ त्रिपाठी (जेसी-803609के), 01 फरवरी
 2010

नायब सूबेदार देव करण (जेसी-803610वाई), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार पिताम्बर मिश्रा (जेसी-803611एफ), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार मोहन के (जेसी-803612के), 01 फरवरी 2010@@

नायब सूबेदार बिजेन्द्र कुमार (जेसी-803613एम), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-803615एक्स), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-803616ए), 01 फरवरी 2010

नायब सूबेदार रामफल (जेसी-803617एच), 03 फरवरी 2010@@

नायब सूबेदार पुलक कान्ति मण्डल (जेसी-803613एल), 08 फरवरी
 2010@@

नायब सूबेदार सुनील कुमार तोमर (जेसी-803619एन), 01 फरवरी
 2010

@@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राधे कान्त दूबे (जेसी-803621एल), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार मणि शेखर एम (जेसी-803623डब्ल्यू), 10 अप्रैल
 2010##

नायब सूबेदार/लिपिक भीम सिंह रावत (जेसी-803739एम), 02 मार्च
 2010##

नायब सूबेदार/लिपिक लक्ष्मीधर तराई (जेसी-803740एफ),
 01 मार्च 2010

##(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-803628पी), 01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार राजपाल सिंह कादियान (जेसी-803632एक्स),
 06 अप्रैल 2010\$\$

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-803633ए), 03 अप्रैल 2010\$\$

नायब सूबेदार जगत सिंह रावत (जेसी-803635एल), 08 अप्रैल
 2010\$\$

नायब सूबेदार/लिपिक तिलक राज शर्मा (जेसी-803741के),
 01 अप्रैल 2010

\$\$ (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 9510852वाई अब जेसी-804317एन),
 06 जुलाई 2009@

@@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 16 जून 2009 से दी जाएगी)

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 9510864एन अब जेसी-804318डब्ल्यू),
 01 जुलाई 2009

हवलदार योगेश कुमार अत्री (सं. 9510866वाई अब जेसी-
 804319वाई), 01 जुलाई 2009

हवलदार नरपत सिंह राठौर (सं. 9510867एफ अब जेसी-804320एन),
 02 जुलाई 2009#

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 9510868के अब जेसी-804321डब्ल्यू),
 04 जुलाई 2009#

##(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
 ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 9510870एफ अब जेसी-804323एफ),
 05 अगस्त 2009\$

हवलदार उमाशंकर यादव (सं. 9510871के अब जेसी-804324के),
 11 सितम्बर 2009\$

हवलदार सुकान्त कुमार दाश (सं. 9510872एम अब जेसी-
 804325एम), 01 अगस्त 2009

हवलदार आशीत कुमार भट्टाचार्य (सं. 9510873पी अब
 जेसी-804326पी), 01 अगस्त 2009

- हवलदार देवेन्द्र सिंह कुशवाह (सं. 9510876एच अब जेसी-804327एक्स), 01 अगस्त 2009
- हवलदार जोखन राय (सं. 9510884एफ अब जेसी-804328ए), 01 अगस्त 2009
- हवलदार डिगर सिंह (सं. 9510885के अब जेसी-804329एच), 01 अगस्त 2009
- हवलदार अशोक कुमार (सं. 9510886एम अब जेसी-804330एक्स), 04 सितम्बर 2009\$
- हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 9510887पी अब जेसी-804331ए), 01 अगस्त 2009
- हवलदार प्रफुल्ल कुमार मिश्र (सं. 9510888एक्स अब जेसी-804332एच), 01 अगस्त 2009
- हवलदार सुधाकरन नायर एन (सं. 9510890पी अब जेसी 804333एल), 01 अगस्त 2009
- हवलदार मेदप्पा एम एस (सं. 9510892ए अब जेसी-804334एन), 01 अगस्त 2009
- हवलदार थोमस पी वी (सं. 9510900एन अब जेसी-804335डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009
- हवलदार खगेश्वर साहू (सं. 9510902वाई अब जेसी-804335वाई), 12 अगस्त 2009\$
- हवलदार वी सुधाकर चंगवल्लि (सं. 9510904के अब जेसी-804337एफ), 01 अगस्त 2009
- \$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार एम श्रीनिवासलु रेड्डी (सं. 9510905एम अब जेसी-804338के), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार अमर प्रकाश (सं. 9510906पी अब जेसी-804339एम), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार कृष्णा चन्द्र प्रधान (सं. 9510907एक्स अब जेसी-804340एफ), 03 सितम्बर 2009&
- हवलदार गजानन हेगडे (सं. 9510909एच अब जेसी-804341के), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार भूप चन्द (सं. 9510911ए अब जेसी-804342एम), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार वासुदेव राव हनुमन्तु (सं. 9510912एल अब जेसी-804343पी), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार चौधरी सुभाष चन्द्रा (सं. 9510913एल अब जेसी-804344एक्स), 04 सितम्बर 2009&
- हवलदार शेख करीमुल्लाह (सं. 9510914एन अब जेसी-804345ए), 01 सितम्बर 2009
- हवलदार चंद्र शेखर भट्ट (सं. 9510918के अब जेसी-804346एच), 12 सितम्बर 2009&
- & (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार (लिपिक) परमार दलपत सिंह कभाई भाई (सं. 9509915के अब जेसी-804350एल), 01 अक्टूबर 2009
- हवलदार रविन्द्र प्रसाद (सं. 9510891एक्स अब जेसी-804348एन), 05 नवम्बर 2009@
- @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार फकीर चरण नायक (सं. 9510607डब्ल्यू अब जेसी-804349डब्ल्यू), 08 नवम्बर 2009@@
- @@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार (लिपिक) मिहिर कुमार डे (सं. 95109917पी अब जेसी-804351एन), 09 नवम्बर 2009#
- हवलदार अजित कुमार के सी (सं. 9510919एम अब जेसी-804352डब्ल्यू), 06 नवम्बर 2009#
- हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 9510920एफ अब जेसी-804353वाई), 17 नवम्बर 2009#
- हवलदार हेमन्त कुमार परिडा (सं. 9510922एम अब जेसी-804354एफ), 09 नवम्बर 2009#
- हवलदार शिवेन्द्र कुमार सिंह (सं. 9510925ए अब जेसी-804355के), 07 नवम्बर 2009#
- # (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाएगी)
- हवलदार (लिपिक) कुमारन सी एम (सं. 9509918एक्स अब जेसी-804356एम), 01 दिसम्बर 2009
- हवलदार देवी चन्द (सं. 9510926एच अब जेसी-804357पी), 01 दिसम्बर 2009
- हवलदार अब्दुल रसीद ईलाकोला (सं. 9510938एक्स अब जेसी-804363एच), 01 जनवरी 2010
- हवलदार पदुम सिंह (सं. 9510943एच अब जेसी-804364एल), 01 जनवरी 2010
- हवलदार देवेन्द्र सिंह रावत (सं. 9510944एल अब जेसी-804365एन), 01 जनवरी 2010
- हवलदार प्रेम सिंह (सं. 9510945एन अब जेसी-804366डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010
- हवलदार नीरज कुमार शर्मा (सं. 9510946डब्ल्यू अब जेसी-804367वाई), 01 जनवरी 2010

हवलदार धीरेन्द्र सिंह (सं. 9510948एफ अब जेसी-804368एफ),
01 जनवरी 2010

हवलदार चन्द्र पाल सिंह (सं. 9510949के अब जेसी-804369के),
01 जनवरी 2010

हवलदार प्रितपाल सिंह (सं. 9510952के अब जेसी-804371एफ),
01 जनवरी 2010

हवलदार गौरी शंकर तिवारी (सं. 9510841एम अब जेसी-804347एल), 23 नवम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आनन्द बल्लभ (सं. 9510874एक्स अब जेसी-804359ए),
21 जनवरी 2010**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 9510928एन अब जेसी-804358एक्स),
02 दिसम्बर 2009***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 9510930एल अब जेसी-804360पी),
01 जनवरी 2010

हवलदार दुर्गा प्रसाद सिंह (सं. 9510931एन अब जेसी-804361एक्स),
01 जनवरी 2010

हवलदार शिवा नन्द (सं. 9510933वाई अब जेसी-804362ए),
01 जनवरी 2010

हवलदार देवेन्द्र कुमार (सं. 9510950वाई अब जेसी-804370वाई),
01 जनवरी 2010

हवलदार विरेन्द्र (सं. 9510953एम अब जेसी-804372के),
03 जनवरी 2010#

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाएगी)

हवलदार शम्भु सिंह (सं. 9510954पी अब जेसी-804373एम),
10 फरवरी 2010##

हवलदार राधाकृष्णन पी (सं. 9510956ए अब जेसी-804374पी),
03 फरवरी 2010##

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 9510960एच अब जेसी-804375एक्स),
03 फरवरी 2010##

हवलदार प्रकाश एन (सं. 9510962एन अब जेसी-804376ए),
01 फरवरी 2010

हवलदार राकेश कुमार (सं. 9510966के अब जेसी-804377एच),
01 फरवरी 2010

हवलदार जगदीश प्रसाद राय (सं. 9510980डब्ल्यू अब जेसी-804378एल), 01 फरवरी 2010

हवलदार महेश पाल सिंह (सं. 9510967एम अब जेसी-804379एन),
01 फरवरी 2010

हवलदार नरेन्द्र छोटेराय (सं. 9510968पी अब जेसी-804380एच),
02 फरवरी 2010##

हवलदार लुकिन्द्र सिंह (सं. 9511000डब्ल्यू अब जेसी-804381एल),
01 फरवरी 2010

हवलदार नारायणन कूट्टी एम के (सं. 9511002एफ अब जेसी-804382एन), 02 फरवरी 2010##

हवलदार सुरिंदर कुमार (सं. 9511006एक्स अब जेसी-804384वाई),
01 फरवरी 2010

हवलदार विद्या सागर राय (सं. 9511007ए अब जेसी-804385एफ),
08 फरवरी 2010##

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाएगी)

हवलदार जितेन्द्र सिंह राजौरा (सं. 9511006डब्ल्यू अब जेसी-804387एम), 08 मार्च 2010###

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 फरवरी 2010 से दी जाएगी)

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 9511008एच अब जेसी-804388पी),
01 मार्च 2010

हवलदार रेघुनाथकुरूप एन (सं. 9511016एफ अब जेसी-804390एम), 01 मार्च 2010

हवलदार (लिपिक) राजेन्द्र सिंह (सं. 9509678एल अब जेसी-804391पी), 01 मार्च 2010

हवलदार (लिपिक) मुकेश चन्द्र मिश्रा (सं. 9509919ए अब जेसी-804392एक्स), 01 मार्च 2010

प्रेम प्रकाश
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 624, दिनांक 11 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करती हैं :-

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार/क्लर्क (एसडी) जे मंडल (सं. 6925442एल अब जेसी-728884ए), 01 अप्रैल 2010

हवलदार/क्लर्क (एसडी) पी के दास (सं. 6925445वाई अब जेसी-728885एच), 01 अप्रैल 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) आर एल यादव (सं. 6925536एच अब जेसी-728886एल), 01 अप्रैल 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) अनिल कुमार (सं. 6925586एन अब जेसी-728887एन), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) आर के सिंह (सं. 6925588वाई अब जेसी-728888डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) विरेंद्रा सिंह (सं. 6925589एफ अब जेसी-728889वाई), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) गोविंद सिंह (सं. 6920763वाई अब जेसी-728890एन), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) एस एस यादव (सं. 6921612एम अब जेसी-728891डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) के पी यादव (सं. 6921646ए अब जेसी-728892वाई), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) जे सी जोशी (सं. 6921665एल अब जेसी-728893एफ), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) ए बी सिंह (सं. 6921674एम अब जेसी-728894के), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी एस सी राम (सं. 6922427एल अब जेसी-728895एम), 21 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी ए बी मिश्रा (सं. 6925295एन अब जेसी-728896पी), 01 अप्रैल 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी अनिल कुमार (सं. 6925427डब्ल्यू अब जेसी-728897एक्स), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी वी डी मोहराना (सं. 6925450के अब जेसी-728896ए), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी डी के गयेन (सं. 6925467एक्स अब जेसी-728899एच), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी नागेंद्रा साह (सं. 6925485ए अब जेसी-728900एम), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी एस आर सिंह (सं. 6925514के अब जेसी-728901पी), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी विनोद कुमार (सं. 6925515एम अब जेसी-728902एक्स), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी चितरंजन सिंह (सं. 6925557वाई अब जेसी-728903ए), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी यू मिश्रा (सं. 6925635एल अब जेसी-728904एच), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) अम्युनिशन के ए त्रिवेदी (सं. 6925636एन अब जेसी-728905एल), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) अम्युनिशन एस एन दीक्षित (सं. 6925728ए अब जेसी-728906एन), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी एस एम नायडू (सं. 6926254डब्ल्यू अब जेसी-728907डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी डी सेल्वा राज (सं. 6926258एम अब जेसी-728908वाई), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी होशियार सिंह (सं. 6926288के अब जेसी-728909एफ), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी जी एस गौड़ (सं. 6926289एम अब जेसी-728910डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी आर पी यादवे (सं. 6926298के अब जेसी-728911वाई), 01 मई 2010

हवलदार एसएच (जीडी) बी के यादव (सं. 6942061ए अब जेसी-728912एफ), 01 मई 2010

हवलदार एसएच (जीडी) ए पी सिंह (सं. 6921761ए अब जेसी-728913के), 01 मई 2010

हवलदार एसएच (जीडी) जैराम पांडे (सं. 6922707वाई अब जेसी-728914एम), 01 मई 2010

हवलदार एसएच (जीडी) आर के सिंह (सं. 6922853वाई अब जेसी-728915पी), 01 मई 2010

हवलदार एसएच (जीडी) सात्य पाल (सं. 6922867वाई अब जेसी-728916एक्स), 01 मई 2010

हवलदार एसएच (जीडी) आर पी कुशवाह (सं. 6923054पी अब जेसी-728917ए), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) एलंगोवन बी (सं. 6924976के अब जेसी-728918एच), 01 जनवरी 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) पटेल निवास राव (सं. 6925053एल अब जेसी-728919एल), 01 जनवरी 2010

हवलदार/क्लर्क (एसडी) मखन सिंह (सं. 6925569एन अब जेसी-728920ए), 01 अप्रैल 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) पटेल नाम देव (सं. 6920874डब्ल्यू अब जेसी-728921एच), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) आर के ठाकर (सं. 6921336पी अब जेसी-728922एल), 01 मई 2010

हवलदार/क्लर्क (एसडी) त्रिलोक प्रसाद (सं. 6924110पी अब जेसी-728923एन), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (एसडी) अजित सिंह (सं. 6925530एफ अब जेसी-728924डब्ल्यू), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) सुरेंद्र कुमार (सं. 6921814एन अब जेसी-728925वाई), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) अवदेश कुमार (सं. 6921945वाई अब जेसी-728926एफ), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) आई एल चौधरी (सं. 6925590डब्ल्यू अब जेसी-728927के), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) विक्रम सिंह (सं. 6925595पी अब जेसी-728928एम), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) एस एस यादव (सं. 6925604एल अब जेसी-728929पी), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (एसडी) गार्डकवाड़ डी एच (सं. 6925605एन अब जेसी-728930के), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) दुर्गा दास (सं. 6925606डब्ल्यू अब जेसी-728931एम), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) आम्युनेशन मंद्रप राम (सं. 6926299डब्ल्यू अब जेसी-728932पी), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी गणेश राम (सं. 6926306एफ अब जेसी-728933एक्स), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी मन्नी राम (सं. 6926310के अब जेसी-728934ए), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) आम्युनेशन पी के सिंह (सं. 6926311एम अब जेसी-728935एच), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी पी के चौधरी (सं. 6926314ए अब जेसी-728936एल), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी एस के खलिय (सं. 6926304डब्ल्यू अब जेसी-728937एन), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी एस पी चौधरी (सं. 6926316एल अब जेसी-728938डब्ल्यू), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी एन आर सैनी (सं. 6926320एन अब जेसी-728939वाई), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी आर मुरुगन (सं. 6926336वाई अब जेसी-728940एन), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी कंवर सिंह (सं. 6926348एन अब जेसी-728941डब्ल्यू), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी राज कुमार (सं. 6926350एल

अब जेसी-728942वाई), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी सुरजीत सिंह (सं. 6926353वाई अब जेसी-728943एफ), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी एस के सैनी (सं. 6926354एफ अब जेसी-728944के), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) जीएस एंड सी ए एस नेगी (सं. 6926356एम अब जेसी-728945एम), 01 जून 2010

हवलदार (एसकेटी) एमटी एस सी वर्मा (सं. 6926373एम अब जेसी-728946पी), 01 जून 2010

हवलदार (एसएचटी) वी एस खरीटा (सं. 6921700एच अब जेसी-728947एक्स), 01 जून 2010

हवलदार (एसएचटी) बाबु सिंह (सं. 6921869एक्स अब जेसी-728948ए), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) प्रेम सिंह (सं. 6922992एच अब जेसी-728949एच), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) विजय पाल (सं. 6922224एफ अब जेसी-728950एक्स), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) एम डी रफिक खान (सं. 6922847एल अब जेसी-728951ए), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) शिव कुमार (सं. 6922495वाई अब जेसी-728952एच), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) के एल भगवान (सं. 6923085पी अब जेसी-728953एल), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) के खखा (सं. 6923091एच अब जेसी-728954एन), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) ए आर बनिक्या (सं. 6923128वाई अब जेसी-728955डब्ल्यू), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) ए के सिंह (सं. 6923165एन अब जेसी-728956वाई), 01 जून 2010

हवलदार एसएच (जीडी) आर बी एस नाठ (सं. 6923168ए अब जेसी-728957एफ), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) अरविंद सिंह (सं. 6925593के अब जेसी-728959एम), 01 जून 2010

हवलदार/क्लर्क (एसडी) राम नरेश (सं. 6925607वाई अब जेसी-728960एफ), 01 जुलाई 2010

हवलदार/क्लर्क (आईएम) एस एस यादव (सं. 6925608एफ अब जेसी-728961के), 01 जुलाई 2010

हवलदार/क्लर्क (एसडी) आर सी गुप्त (सं. 6925609के अब जेसी-728962एम), 01 जुलाई 2010

- हवलदार/क्लर्क (आईएम) अर्जुन सिंह (सं. 6925610वाई अब जेसी-728963पी), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी राज नारायण (सं. 6926375एक्स अब जेसी-728964एक्स), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी राम क्रिपाल (सं. 6926378एल अब जेसी-728965ए), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी राम मोहन (सं. 6926379एन अब जेसी-728966एच), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी हरी राम (सं. 6926406एम अब जेसी-728967एल), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी अजित सिंह (सं. 6926410पी अब जेसी-728968एन), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी जे एस नेहरा (सं. 6926436के अब जेसी-728969डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी बी जे के धीरज लाल (सं. 6926458एच अब जेसी-728970एल), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी जी एम पांडे (सं. 6926521एम अब जेसी-728971एन), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी ए आर लखमन (सं. 6926462एल अब जेसी-728972डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी के एस पुनिया (सं. 6926525एच अब जेसी-728973वाई), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसकेटी) एमटी नागिंदर सिंह (सं. 6926528डब्ल्यू अब जेसी-728974एफ), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसएचटी) जी एस त्रिपाठी (सं. 6921878वाई अब जेसी-728975के), 01 जुलाई 2010
- हवलदार (एसएचटी) पुस्कर सिंह (सं. 6921957एन अब जेसी-728976एम), 01 जुलाई 2010
- हवलदार एस एच (जीडी) सशिकांत राय (सं. 6923036एम अब जेसी-728977पी), 01 अप्रैल 2010
- हवलदार एस एच (जीडी) जी एन श्रीनाथ (सं. 6923199ए अब जेसी-728978एक्स), 01 जुलाई 2010
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में धिरेन्द्र सिंह (सं. 14603148एक्स अब जेसी-764822एल), 01 अप्रैल 2010
- सनवर मल (सं. 14607615एफ अब जेसी-764956के), 05 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*
- बिजू जॉर्ज (सं. 14608169एक्स अब जेसी-764957एम), 01 अप्रैल 2010
- एस शिवा सुब्रामणियन (सं. 14608063एल अब जेसी-764958पी), 01 अप्रैल 2010
- मुगदा सूर्यानारायण (सं. 14599921वाई अब जेसी-764813के), 07 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010*
- राधा कृष्ण पाडेय (सं. 14601329के अब जेसी-764817ए), 06 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010*
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में कपिल कुमार अग्रवाल (सं. 14613016एक्स अब जेसी-764858के), 15 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- कृष्ण कुमार (सं. 14616158ए अब जेसी-764859एम), 01 मार्च 2010
- सिरूदया स्वामी (सं. 14616554डब्ल्यू अब जेसी-764860एफ), 04 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- पदम सिंह (सं. 14616838ए अब जेसी-764862एम), 01 मार्च 2010
- तरक नाथ सरकार (सं. 14617361एच अब जेसी-764864एक्स), 01 अप्रैल 2010
- बलवंत सिंह (सं. 14618060एल अब जेसी-764865ए), 01 अप्रैल 2010
- स्वपन कुमार परीया (सं. 14618090एच अब जेसी-764866एच), 01 अप्रैल 2010
- माणिक चन्द्र (सं. 14611382एच अब जेसी-764867एल), 01 अप्रैल 2010
- आदित्य शुक्ला (सं. 14615374एफ अब जेसी-764863पी), 10 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*
- हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में मेघराज सिंह (सं. 14600995एच अब जेसी-764875के), 27 मार्च 2010/07 मार्च 2010*
- पुजारी दीपक शामराव (सं. 14603221एल अब जेसी-764876एम), 22 मार्च 2010/07 मार्च 2010*
- निरंजन प्रधान (सं. 14600354डब्ल्यू अब जेसी-764877पी), 20 मार्च 2010/07 मार्च 2010*
- मिथिला प्रसाद (सं. 14589148के अब जेसी-764878एक्स), 01 अप्रैल 2010
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एबीएन (एएफ) के रैंक में सतीश चन्द्र दुबे (सं. 14620864वाई अब जेसी-764882ए), 01 अप्रैल 2010
- संतोष कुमार द्विवेदी (सं. 14621264एच अब जेसी-764885एन), 01 अप्रैल 2010
- गवरा कनक राव (सं. 14626376एम अब जेसी-764889के), 01 अप्रैल 2010

लॉउस डी सोज़ा (सं. 14625791एफ अब जेसी-764890वाई),
01 अप्रैल 2010

सेल्वाराज एस एस (सं. 14626028एल अब जेसी-764915ए),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ईई) के रैंक में
पैपा राम सैनी (सं. 14626602वाई अब जेसी-764894पी),
01 अप्रैल 2010

मुरुगावेल सी (सं. 14629001वाई अब जेसी-764896ए),
03 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

मंजन कुमार (सं. 14633506एम अब जेसी-764897एच), 01
अप्रैल 2010

अर्जुन सिंह नेगी (सं. 14634645एच अब जेसी-764898एल),
01 अप्रैल 2010

सच्चिदा नंद द्विवेदी (सं. 14634699के अब जेसी-764899एन),
01 अप्रैल 2010

सतीश कुमार (सं. 14634764वाई अब जेसी-764900एक्स),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवोनिक्स के रैंक में
मेन्दा धर्मा राजू (सं. 14618522एम अब जेसी-764910एफ),
01 अप्रैल 2010

वाई शिवशंकर (सं. 14618182एफ अब जेसी-764908के),
01 अप्रैल 2010

के सरवन कुमार (सं. 14618167ए अब जेसी-764909एम),
01 अप्रैल 2010

सर्वेश चन्द्र (सं. 14618708डब्ल्यू अब जेसी-764911के), 01 अप्रैल
2010

दिलीप कुमार श्रीवास्तव (सं. 14622586पी अब जेसी-764912एम),
01 अप्रैल 2010

राकेश मिश्रा (सं. 14616033एच अब जेसी-764913पी), 01 अप्रैल
2010

मिथिलेश कुमार (सं. 14627005डब्ल्यू अब जेसी-764916एच),
01 अप्रैल 2010

प्रज्ञानंद प्राज्ञेश (सं. 14637128डब्ल्यू अब जेसी-764918एन),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ईलेक्ट) के रैंक में
मृणाल कुन्डू (सं. 14609402एम अब जेसी-764905डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक बी वेहीकल के रैंक में
बलवान सिंह (सं. 14566781एक्स अब जेसी-764919डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

एम डी मोतिउर्हमान (सं. 14567646डब्ल्यू अब जेसी-764921एन),
05 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

जी प्रमोद कुमार (सं. 14567741एच अब जेसी-764922डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक इंजीनियर इक्वूपमेन्ट के रैंक में
जी पेरूमल (सं. 14581952डब्ल्यू अब जेसी-764926एम),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में
सुनील कुमार (सं. 14622783एक्स अब जेसी-764933एच),
30 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

राज कुमार राम (सं. 14597814वाई अब जेसी-764934एल),
01 अप्रैल 2010

दाऊ दयाल शर्मा (सं. 14612710एक्स अब जेसी-764936डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

कपिल देव सिंह (सं. 14615918एल अब जेसी-764937वाई),
01 अप्रैल 2010

विनोद कुमार (सं. 14617068एल अब जेसी-764938एफ),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्युनिकेशन के रैंक में
एम अब्दुल सलीम (सं. 14618570एम अब जेसी-764941एफ),
13 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

ऊंहाले चन्द्रकान्त गनपत (सं. 14621213पी अब जेसी-
764945एक्स), 01 अप्रैल 2010

त्रिभूवन भाउशहेब बैचन्द (सं. 14624581पी अब जेसी-764939के),
01 मार्च 2010

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटलर्जी रैंक में
सुनीर एस (सं. 14646524एन अब जेसी-764953डब्ल्यू), 01
अप्रैल 2010/13 फरवरी 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मशिनिस्ट रैंक में
शिशु पाल सिंह (सं. 14581986के अब जेसी-764967डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार अर्माइन्ट (एएफभीडी) रैंक में
लालता प्रसाद सिंह (सं. 14570098पी अब जेसी-764873वाई),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वेहीकल रैंक में
बसुदेव जेना (सं. 14620677ए अब जेसी-764793एफ), 01 मार्च
2010

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

- हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक बी वेहीकल के रैंक में
तिजोगन जोसेफ (सं. 14619631एल अब जेसी-764403एन),
05 नवम्बर 2009/18 अक्तूबर 2009*
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में
अभय नारायण पाण्डेय (सं. 14622533डब्ल्यू अब जेसी-764777के),
09 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- एस जया कुमार (सं. 14623123एम अब जेसी-764778एम),
11 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- नर्साले रंगजी शिवाजी (सं. 14624758एक्स अब जेसी-764779पी),
13 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- धरम पाल (सं. 14593788एल अब जेसी-764802एक्स), 17 मार्च
2010/01 मार्च 2010*
- प्रदीप कुमार गहतो (सं. 14595447वाई अब जेसी-764803ए),
17 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- सुभाष चन्द्र (सं. 14595349वाई अब जेसी-764804एच), 10 मार्च
2010/01 मार्च 2010*
- संत राम (सं. 14595682एक्स अब जेसी-764805एल), 01 मार्च
2010
- हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक ए वेहीकल के रैंक में
रविन्द्र सिंह (सं. 14611221ए अब जेसी-764780के), 12 मार्च
2010/01 मार्च 2010*
- नंद किशोर पाण्डेय (सं. 14615700वाई अब जेसी-764781एम),
11 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- रजिन्दर सिंह (सं. 14617919एम अब जेसी-764782पी), 15 मार्च
2010/01 मार्च 2010*
- पिनाकी भादूरी (सं. 14618092एन अब जेसी-764783एक्स),
16 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- बी टी नागराजन (सं. 14618365एल अब जेसी-764784ए),
01 मार्च 2010
- सतबिन्दर सिंह (सं. 14618953वाई अब जेसी-764785एच),
11 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- रतना ईश्वर राव (सं. 14618962ए अब जेसी-764786एल),
10 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- अरूण कुमार कोले (सं. 14619025पी अब जेसी-764787एन),
17 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- विजय पाल यादव (सं. 14619060एक्स अब जेसी-764788डब्ल्यू),
13 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- भगवती प्रसाद उप्रेती (सं. 14619367एच अब जेसी-764789वाई),
17 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- भुपेन्द्र सिंह (सं. 14620074के अब जेसी-764790एन), 15 मार्च
2010/01 मार्च 2010*
- सेल्वा कुमार सी (सं. 14620465पी अब जेसी-764791डब्ल्यू),
10 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- मुनक्का राम (सं. 14620541डब्ल्यू अब जेसी-764792वाई),
01 मार्च 2010
- रविन्दर सिंह (सं. 14620779डब्ल्यू अब जेसी-764794के),
18 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- राजेश कुमार (सं. 14620784एफ अब जेसी-764795एम),
10 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- जया चंद्रन पी (सं. 14621061वाई अब जेसी-764796पी),
12 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- देवेन्द्र सिंह (सं. 14621257एम अब जेसी-764798ए), 09 मार्च
2010/01 मार्च 2010*
- अनिल कुमार प्रजापती (सं. 14621260एम अब जेसी-764799एच),
17 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- अयासा कांत साहू (सं. 14621458एल अब जेसी-764800एम),
15 मार्च 2010/01 मार्च 2010*
- विपन कटोच (सं. 14621869के अब जेसी-764801पी), 01 मार्च
2010
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में
सुकांता घोष (सं. 14627026एम अब जेसी-764745एफ),
01 अप्रैल 2010
- *पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।
- हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में
के सिद्धारूधा सिद्धाम्मा (सं. 14622686ए अब जेसी-764083के),
17 मई 2010/01 जून 2009*
- दया नंद (सं. 14607154एच अब जेसी-764954वाई), 01 अप्रैल
2010
- ओम प्रकाश (सं. 14607198ए अब जेसी-764955एफ), 02 अप्रैल
2010/01 अप्रैल 2010*
- सतवीर सिंह (सं. 14608559ए अब जेसी-764961पी), 01 मई
2010
- गोविन्द प्रसाद (सं. 14608855एल अब जेसी-764962एक्स),
01 मई 2010
- इन्द्रजीत प्रसाद (सं. 14609226ए अब जेसी-764964एच),
01 मई 2010
- उदय कुमार एस (सं. 14609258एच अब जेसी-764965एल),
01 मई 2010

एम सरवनन (सं. 14623083डब्ल्यू अब जेसी-764969एफ),
06 मई 2010/21 मार्च 2010*

ए रवी कुमार (सं. 14606284वाई अब जेसी-764970डब्ल्यू),
24 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अष्टो इलेक्ट के रैंक में

वी अरुमुगम (सं. 14621577एफ अब जेसी-764971वाई),
19 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

नीरज कुमार सिंह (सं. 14618652पी अब जेसी-764846पी),
11 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

मुरली एम (सं. 14618568पी अब जेसी-764940वाई), 08 अप्रैल
2010/01 अप्रैल 2010*

अर्धो मुरली कुमार (सं. 14618867एच अब जेसी-764942के),
03 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

मनोज कुमार सिंह (सं. 14620433एम अब जेसी-764944पी),
05 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

अविनाश (सं. 14623175एच अब जेसी-764946ए), 01 मई 2010

चन्द्र शेखर अजाद (सं. 14623674एक्स अब जेसी-764948एल),
01 मई 2010

सुरेन्द्र कुमार (सं. 14623678एन अब जेसी-764949एन), 01 मई
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में

शर्मा जितेन्द्र कुमार (सं. 14576917के अब जेसी-764871एन),
01 मई 2010

अशोक कुमार परीडा (सं. 14577449एफ अब जेसी-764872डब्ल्यू),
01 मई 2010

जगत सिंह (सं. 14574708एन अब जेसी-764874एफ), 03 मई
2010/01 मई 2010*

सतीश चन्द्र मेहता (सं. 14577819डब्ल्यू अब जेसी-764975पी),
01 मई 2010

राम प्रवेश सिंह (सं. 14577705एल अब जेसी-764977ए), 01 मई
2010

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

पंची लाल (सं. 14592244के अब जेसी-764879ए), 01 मई
2010

मलकीयत सिंह (सं. 14613683एल अब जेसी-764880पी),
01 मई 2010

महेन्द्र महंता (सं. 14600356एफ अब जेसी-765020एन), 01 मई
2010

मूल चंद (सं. 14605118वाई अब जेसी-765022वाई), 10 मई
2010/01 मई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ए एफ) के रैंक में

पी ईश्वर मूर्थी (सं. 2889517एल अब जेसी-764883एच),
19 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

एंटेनी क्रिष्ण जोस के (सं. 14622133के अब जेसी-764886डब्ल्यू),
03 मई 2010/01 अप्रैल 2010*

एम श्रीनिवासन (सं. 14626375के अब जेसी-764888एफ),
05 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

शशी कुमार एम (सं. 14626946एक्स अब जेसी-764891एफ),
01 अप्रैल 2010

सुसान्ता कुमार खन्डई (सं. 14619515एच अब जेसी-764914एक्स),
01 अप्रैल 2010

पी जस्टीस राज (सं. 14636412ए अब जेसी-764917एल),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ई) के रैंक में

के स्वामी रंगा रेड्डी (सं. 14627275एल अब जेसी-764895एक्स),
15 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

महेन्द्र सिंह (सं. 14634789एल अब जेसी-764901ए), 08 अप्रैल
2010/01 अप्रैल 2010*

धरम राज (सं. 14636150पी अब जेसी-764903एल), 01 मई
2010/01 अप्रैल 2010*

हिमाद्री भूषण त्रिपाठी (सं. 14635454ए अब जेसी-764902एच),
05 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

ईल्लप्पन एम (सं. 14635286एम अब जेसी-764972एफ),
21 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार अटो टेक बी वेहीकल के रैंक में

उदयभान सिंह पाल (सं. 14567143एल अब जेसी-764920एल),
15 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

बिजय बाहदुर सिंह (सं. 14567725एल अब जेसी-764923वाई),
01 मई 2010

सुरेन्द्र कुमार प्रधान (सं. 14568138एम अब जेसी-764924एफ),
01 मई 2010

टी चिट्डी बाबू (सं. 14567963एक्स अब जेसी-764925के),
01 मई 2010

शैलेन्द्र कुमार (सं. 14567600एन अब जेसी-764974एम),
29 अप्रैल 2010/25 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सुनील दथ के पी (सं. 14587123वाई अब जेसी-764927पी),
01 मई 2010

एस प्रल्हाद नामदेव (सं. 14587132ए अब जेसी-764928एक्स),
01 मई 2010

ज्ञानेश्वर गोपाल कुमार (सं. 14587130पी अब जेसी-764929ए),
01 मई 2010

राजन थिवलप्पील (सं. 14589751एम अब जेसी-764930पी),
01 मई 2010

श्री कुमार ए टी (सं. 14589757एन अब जेसी-764931एक्स),
01 मई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

गौरी शंकर (सं. 14611494एच अब जेसी-764935एन), 01 अप्रैल
2010

सुख राम (सं. 14617078पी अब जेसी-764990के), 01 मई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

रवीन्द्र सिंह (सं. 14584946एल अब जेसी-764951एल), 01 मई
2010

मूथु गोपाल (सं. 14584327ए अब जेसी-764952एन), 01 मई
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में

अमरेश कुमार पाण्डेय (सं. 14617506एच अब जेसी-764973के),
20 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में

त्रिभुवन नाथ (सं. 14584217एल अब जेसी-764568एम),
10 दिसम्बर 2009/01 दिसम्बर 2009*

अवध किशोर सिंह (सं. 14596051एफ अब जेसी-764806एन),
11 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

गोपीनाथ पी के (सं. 14599137एल अब जेसी-764809एफ),
06 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

अबधेश कुमार राय (सं. 14600347ए अब जेसी-764811वाई),
19 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

उन्नी कृष्णन टी (सं. 14599451वाई अब जेसी-764812एफ),
15 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

तारकेश्वर तिवारी (सं. 14600555पी अब जेसी-764814एम),
05 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

विष्णू राम वारी (सं. 14600911के अब जेसी-764815पी),
10 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

संजीव तिवारी (सं. 14601218एम अब जेसी-764816एक्स),
08 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

शिन्धे अशोक शहाजी राव (सं. 14602029पी अब जेसी-764818एच),
01 अप्रैल 2010

अंजारालाजिभाई मोहनभाई (सं. 14601980एम अब जेसी-764819एल),
01 अप्रैल 2010

पद्मानाभन के एम (सं. 14602380डब्ल्यू अब जेसी-764820ए),
01 अप्रैल 2010

गोधन सिंह (सं. 14602612के अब जेसी-764821एच), 01 अप्रैल
2010

धनोरे गजानन छोटेलाल (सं. 14605302के अब जेसी-764823एन),
01 अप्रैल 2010

कुशल सिंह रावत (सं. 14605324एच अब जेसी-764824डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

राजवीर सिंह (सं. 14605252के अब जेसी-764825वाई), 01 अप्रैल
2010

धननजयन ही (सं. 14606415वाई अब जेसी-764826एफ),
01 अप्रैल 2010

प्रभू नारायण प्रसाद (सं. 14606804वाई अब जेसी-764827के),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

सुरेश चन्द (सं. 14613072डब्ल्यू अब जेसी 764690एच),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

धर्मेन्द्र सिंह (सं. 14623306एच अब जेसी-764705ए), 01 अप्रैल
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलेक्ट के रैंक में

प्रमोद कुमार सिंह (सं. 14618004एम अब जेसी-764713वाई),
01 मार्च 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

संजय कुमार (सं. 14625474ए अब जेसी-764731एफ), 01 अप्रैल
2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिक्शन के रैंक में

शिकें संतोष मोहन (सं. 14618478एन अब जेसी-764828एम),
11 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

विजय कुमार यादव (सं. 14618660एन अब जेसी-764829पी),
15 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

हंस राज (सं. 14618669एच अब जेसी-764830के), 01 अप्रैल
2010/01 मार्च 2010*

रमेश अर्धी (सं. 14618825एफ अब जेसी-764831एम), 01 मार्च
2010

बबूला स्वैन (सं. 14621446डब्ल्यू अब जेसी-764832पी),
01 मार्च 2010

गुरदेव दास (सं. 14621457एच अब जेसी-764833एक्स),
01 मार्च 2010

बाला मुरुगन एन (सं. 14622872डब्ल्यू अब जेसी-764835एच),
16 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

प्रमोद कुमार यादव (सं. 14623437एन अब जेसी-764836एल),
13 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

सच्चिदा नंद पाठक (सं. 14623791एच अब जेसी-764837एन),
01 मार्च 2010

रमेश कुमार (सं. 14625776एम अब जेसी-764838डब्ल्यू),
05 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

एम डी मोज़फर अली (सं. 14618043एल अब जेसी-764839वाई),
01 मार्च 2010

के पान्डी (सं. 14618071एक्स अब जेसी-764840एन), 12 मार्च
2010/01 मार्च 2010*

अशोक कुमार (सं. 14618311के अब जेसी-764841डब्ल्यू),
15 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

हिप्पार्कर बी दास (सं. 14618484एफ अब जेसी-764842वाई),
20 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

गोपी नाथ जेना (सं. 14618516वाई अब जेसी-764843एफ),
15 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

बिजय कुमार (सं. 14618553एम अब जेसी-764845एम),
14 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

येलमार संयज नामदेव (सं. 14618854डब्ल्यू अब जेसी-764847एक्स),
15 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

गुदीप सिंह (सं. 14618887पी अब जेसी-764848ए), 06 मार्च
2010/01 मार्च 2010*

विनोद जैकब (सं. 14618875एम अब जेसी-764849एच),
16 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010*

जगपाल सिंह (सं. 14618936वाई अब जेसी-764850एक्स),
13 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

कपल कुमार (सं. 14618947एल अब जेसी-764851ए), 09 मार्च
2010/01 मार्च 2010*

सुभाष चन्द्र शर्मा (सं. 14618968एफ अब जेसी-764852एच),
20 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

जय सिंह (सं. 14618976ए अब जेसी-764853एल), 13 मार्च
2010/01 मार्च 2010*

अनिल कुमार (सं. 14618998वाई अब जेसी-764854एन),
19 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

रविन्दर सिंह (सं. 14617538एल अब जेसी-764855डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

जी फ्रांगिस (सं. 14617594के अब जेसी-764856वाई), 01 अप्रैल
2010

टेरा श्रीनिवासुला रेड्डी (सं. 14618203ए अब जेसी-764857एफ),
01 अप्रैल 2010

धरमवीर सिंह (सं. 14614708वाई अब जेसी-764861के), 05 मार्च
2010/01 मार्च 2010*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेश के रैंक में

हरी सिंह लाम्बा (सं. 14617746ए अब जेसी-764051एफ),
24 मई 2010/01 जून 2009*

बगुल चैतराम नन्दा (सं. 14620413वाई अब जेसी-764943एम),
03 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में

विनोद कुमार मिश्रा (सं. 14622751पी अब जेसी-764087ए),
25 मई 2010/01 जुलाई 2009*

गेदला कामराजू (सं. 14607971एफ अब जेसी-764959एक्स),
03 मई 2010/01 मई 2010*

राज बहादुर थापा (सं. 14608210एच अब जेसी-764960एम),
01 मई 2010

सुरेन बरुवा (सं. 14608885एच अब जेसी-764963ए), 14 मई
2010/01 मई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

पिताबर त्रिपाठी (सं. 14621120ए अब जेसी-764111एल), 28 मई
2010/07 जून 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलेक्ट के रैंक में

सोहन पाल सिंह राणा (सं. 14618336डब्ल्यू अब जेसी-764282एक्स),
01 नवम्बर 2009

हवलदार से नायब सेबूदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

संजय कुमार (सं. 14626970एन अब जेसी-764740एच),
04 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेटवर्किंग के रैंक में

मनोज कुमार पाटील (सं. 14612637के अब जेसी-764868एन),
01 मई 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ए एफ) के रैंक में

किशोर एन कुमार (सं. 14627431के अब जेसी-764892के),
13 मई 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में
लाल चंद यादव (सं. 14584291एम अब जेसी-764950एच),
03 मई 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में
वलुन्ज अशोक नामदेव (सं. 14577852एन अब जेसी-764976एक्स),
07 मई 2010/01 मई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (आई पी) के रैंक में
पाटील अरूण रंगराव (सं. 14573431एन अब जेसी-765024के),
15 मई 2010/01 मई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार अटो ईलेक्ट बी वेहीकल के रैंक में
हंस राज (सं. 14568268पी अब जेसी-765026पी), 24 मई 2010/
20 मई 2010*

कैलाश चंद सेहरा (सं. 14568370एक्स अब जेसी-765027एक्स),
24 मई 2010/20 मई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में
भरोसे अवधुज डोमाजी (सं. 14586356एन अब जेसी-765021डब्ल्यू),
22 मई 2010/01 मई 2010*

*पिछली तारीख वे वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में
पदम सिंह (सं. 14628573एन अब जेसी-764732के), 23 फरवरी
2010/01 दिसम्बर 2009*

मुकेश चन्द्र (सं. 14625004पी अब जेसी-764737एच), 01 अप्रैल
2010

एस जावीर सेलवाराज (सं. 14626726एन अब जेसी-764738एल),
01 अप्रैल 2010

बाल गोविन्द (सं. 14626964ए अब जेसी-764739एल), 01 अप्रैल
2010

वेलायूथन एग (सं. 14626848एक्स अब जेसी-764741एल),
01 अप्रैल 2010

एस विजय कुमार (सं. 14626859के अब जेसी-764742एन),
01 अप्रैल 2010

जया चन्द्रन एस (सं. 14626996एच अब जेसी-764743डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

संतोष कुमार ठाकुर (सं. 14626919एन अब जेसी-764744वाई),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेटवर्किंग के रैंक में
एन कगेश्वर राव (सं. 14618260एफ अब जेसी-764746के),
01 मार्च 2010

खलीलुर रहमान मजुन्दार (सं. 14575363के अब
जेसी-764747एम), 01 मार्च 2010

सावंत चन्द्र शेखर गुकुन्द (सं. 14616926डब्ल्यू अब जेसी-764748पी),
01 मार्च 2010

सतीश कुमार (सं. 14617096एक्स अब जेसी-764749एक्स),
01 मार्च 2010

नंदन सिंह रावत (सं. 14617509डब्ल्यू अब जेसी-764750डब्ल्यू),
19 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

राग किशोर गुप्ता (सं. 14617374ए अब जेसी-764751पी),
02 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

चिरीनेल्ली सान्ता राव (सं. 14617279एन अब जेसी-764752एक्स),
15 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

पवन कुमार (सं. 14617862एच अब जेसी-764753ए), 01 मार्च
2010

कुंदन कुमार (सं. 14618200एम अब जेसी-764754एच),
01 मार्च 2010

महावीर सिंह (सं. 14607117पी अब जेसी-764755एल), 01 मार्च
2010

आर श्रीनिवासन (सं. 14608849एक्स अब जेसी-764756एन),
02 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

सचित्रा कुमार पांडा (सं. 14612005वाई अब जेसी-764757डब्ल्यू),
05 मार्च 2010/01 मार्च 2010*

दयानन्द शेरगार (सं. 14615675एल अब जेसी-764758वाई),
01 मार्च 2010

प्रेम सिंह (सं. 14615990एफ अब जेसी-764759एफ), 01 मार्च
2010

सुरेश सिंह (सं. 14582533एल अब जेसी-764760डब्ल्यू), 01 मार्च
2010

सथीसन के पी (सं. 14605654एम अब जेसी-764761वाई),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

राम अवतार सिंह (सं. 14588167एच अब जेसी-764762एफ),
01 मार्च 2010

पिताम्बर लाल (सं. 14588172एन अब जेसी-764763के),
01 मार्च 2010

चौहान नामदेवहोना (सं. 14585186एच अब जेसी-764764एम),
01 अप्रैल 2010

हरी शंकर (सं. 14588083पी अब जेसी-764765पी), 01 अप्रैल
2010

रमेशन पी (सं. 14584495वाई अब जेसी-764766एक्स), 01 अप्रैल 2010

सुन्दर लाल (सं. 14601066के अब जेसी-764767ए), 01 अप्रैल 2010

दुर्गपाल सिंह (सं. 14578962पी अब जेसी-764768एच), 01 अप्रैल 2010

राम अवतार सिंह (सं. 14584445एन अब जेसी-764769एल), 01 अप्रैल 2010

सिया राम कुशवहा (सं. 14588186एन अब जेसी-764770ए), 01 अप्रैल 2010

राज कुमार मजुन्दार (सं. 14587808एक्स अब जेसी-764771एच), 01 अप्रैल 2010

आशुतोष सरकार (सं. 14587810पी अब जेसी-764772एल), 01 अप्रैल 2010

समीर कुमार दत्ता (सं. 14587803वाई अब जेसी-764773एन), 01 अप्रैल 2010

दिनेश चन्द्र सिन्हा (सं. 14588616एम अब जेसी-764774डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

महाशीन दफादार (सं. 14587801एन अब जेसी-764775वाई), 01 अप्रैल 2010

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

न कि कश्मीरा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 625, दिनांक 11 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार हर पाल (जेसी-241030डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार अमरीक सिंह (जेसी-241137एल), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-241256एफ), 21 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नरेन्द्र तिवारी (जेसी-241470के), 30 मार्च 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुमान सिंह (जेसी-241583एम), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार गोपाल सिंह (जेसी-241586ए), 07 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सतपाल सिंह (जेसी-241587एच), 04 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जसबीर सिंह (जेसी-241774एन), 14 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दलबीर सिंह (जेसी-241764एक्स), 01 फरवरी 2010

नायब रिसालदार लेखा राम (जेसी-241874एम), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार अशोक सिंह (जेसी-241881एच), 12 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मन्जीत सिंह (जेसी-241901एल), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार गुरप्रीत सिंह (जेसी-241951डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार ज्ञानेन्द्र दत्त सिंह (जेसी-241965डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार बनवारी लाल (जेसी-241970एफ), 04 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भूप सिंह चौहान (जेसी-241977एल), 18 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रामप्रताप सिंह (जेसी-241978एल), 12 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बालाकृष्णन के (जेसी-241979डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

नायब रिसालदार मनवेन्द्र प्रताप सिंह (जेसी-241987पी), 03 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुखविन्द्र सिंह (जेसी-241999के), 14 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार साजु एम के (जेसी-242029एन), 01 फरवरी 2010

नायब रिसालदार हरनाम चन्द शर्मा (जेसी-242100डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार लखबीर सिंह (जेसी-242107ए), 10 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार संजय कुमार (जेसी-242178एफ), 01 मई 2010

नायब रिसालदार रनजीत सिंह (जेसी-242205ए), 07 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम प्रसाद वर्मा (जेसी-242232के), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार राकेश कुमार (जेसी-242235एक्स), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार मजा वि वि एस एस सेशागोरी राव (जेसी-242246के), 03 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बाबु के (जेसी-242248पी), 20 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सथीश कुमार के एस (जेसी-242251पी), 20 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अमरीक सिंह (जेसी-242280के), 05 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार किशोरी लाल (जेसी-242282पी), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार बन्धन साहु (जेसी-242321एच), 03 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विजेन्द्र कुमार (जेसी-242327के), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार ए बशीर अहमद (जेसी-242330के), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार मदन लाल (जेसी-242331एम), 13 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुमेर सिंह नीरवान (जेसी-242351ए), 01 अप्रैल 2010*

नायब रिसालदार जरनेल सिंह (जेसी-242358के), 10 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दिनेश पाल सिंह (जेसी-242388एफ), 03 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रभाकर सिंह (जेसी-242398एल), 01 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम कृष्ण (जेसी-242400एक्स), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार गुरमेल सिंह (जेसी-242406वाई), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार गोविन्द सिंह भाटी (जेसी-242415ए), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार परयाग सिंह राठौर (जेसी-242417एल), 01 अप्रैल 2010*

नायब रिसालदार राजेन्द्रपाल सिंह (जेसी-242443एम), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार नरेन्द्र कुमार प्रधान (जेसी-242444पी), 05 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुखवन्त सिंह (जेसी-242445एक्स), 06 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार भोमा राम (जेसी-242450एच), 07 अप्रैल 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मिथलेश कुमार (जेसी-242452एल), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार गुरमल सिंह (जेसी-242460एम), 01 मार्च 2010

नायब रिसालदार दुर्ग सिंह सिसोदिया (जेसी-242492पी), 01 मई 2010

नायब रिसालदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-242510एम), 01 मई 2010

नायब रिसालदार नाथु सिंह (जेसी-242540के), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार तरसेम सिंह (जेसी-242548डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार जसवन्त सिंह (जेसी-242552वाई), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार सुरेन्द्र मिश्रा (जेसी-242556पी), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार धिर सिंह (जेसी-242557एक्स), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार कप्तान खान (जेसी-242558ए), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार करन सिंह (जेसी-242563एल), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार जगमुनी सिंह (जेसी-242568के), 28 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पविथरन के (जेसी-242590पी), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार जबर सिंह राठोर (जेसी-242592ए), 03 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलजीत सिंह (जेसी-242598एफ), 26 नवम्बर 2009 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुखविन्द्र सिंह (जेसी-242599के), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार सलाम सिंह (जेसी-242638एक्स), 07 मई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-242664वाई), 01 मई 2010

नायब रिसालदार सोहन लाल यादव (जेसी-242667एम), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार जगबीर सिंह (जेसी-242671पी), 12 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नीरञ्जन सिंह (जेसी-242672एक्स), 12 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार एम डी गौसुद्दीन (जेसी-242684एम), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार कुलदीप सिंह (जेसी-242687ए), 20 अप्रैल 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलविन्द्र सिंह (जेसी-242688एच), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार सियजुद्दीन खान (जेसी-242690ए), 05 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुशान्ता कुमार बिसवास (जेसी-242701एफ), 25 जनवरी 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार केसर सिंह (जेसी-242703एम), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार अरबीन्द कुमार सिंह (जेसी-242708एल), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार उदय भान (जेसी-242709एन), 01 जनवरी 2010

नायब रिसालदार के लक्ष्मनन (जेसी-242734एम), 25 नवम्बर 2009 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

<p>नायब रिसालदार साधु राम (जेसी-242739एल), 03 अप्रैल 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार राम कवर (जेसी-242741एच), 05 फरवरी 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार सक्थी धरन नायर एन (जेसी-242743एन), 01 अप्रैल 2010</p> <p>नायब रिसालदार अनील कुमार सिंह (जेसी-242747के), 01 अप्रैल 2010</p> <p>नायब रिसालदार सुभाश चन्द (जेसी-242777एच), 01 अप्रैल 2010</p> <p>नायब रिसालदार शेर सिंह (जेसी-242762वाई), 02 मार्च 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार मदन लाल (जेसी-242776वाई), 13 अप्रैल 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार गुरबक्स सिंह (जेसी-242785ए), 01 अप्रैल 2010</p> <p>नायब रिसालदार हारी सिंह (जेसी-242825डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010</p> <p>नायब रिसालदार बलदेव राज (जेसी-242832एम), 23 दिसम्बर 2009*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार हरीपाल सिंह (जेसी-242850पी), 25 जनवरी 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार चरनजीत सिंह (जेसी-242885एल), 13 अप्रैल 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार शिश राम (जेसी-242886एल), 13 अप्रैल 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार कृष्ण सिंह (जेसी-242897ए), 08 अप्रैल 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)</p>	<p>नायब रिसालदार मनेजर सिंह (जेसी-242901एक्स), 17 अप्रैल 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार रनवीर (जेसी-242919एन), 25 जनवरी 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-242921एल), 01 मई 2010</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार विर सिंह (जेसी-242945वी), 20 अप्रैल 2010</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार मनमना एच (जेसी-242975एम), 23 मार्च 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 फरवरी 2009 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार मेघ सिंह राजपुत (जेसी-242983एल), 20 अप्रैल 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मार्च 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार अशोक कुमार सिंह (जेसी-242991के), 14 जनवरी 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार छनन सिंह भायी (जेसी-242996एच), 01 अप्रैल 2010</p> <p>नायब रिसालदार अर्जुन सिंह (जेसी-243057एम), 02 मार्च 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार सुरजीत सिंह (जेसी-243096एल), 27 जनवरी 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)</p> <p>नायब रिसालदार सुरेश कुमार (जेसी-243121वाई), 21 अप्रैल 2010*</p> <p>*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)</p>
--	---

नायब रिसालदार रघुबीर सिंह (जेसी-243134डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रामा कृष्णन टी (जेसी-243136एफ), 29 नववरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रनजीत कुमार (जेसी-243163एल), 20 फरवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघुबीर सिंह (जेसी-243134डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार करमबीर सिंह (जेसी-243181एन), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार राम कुमार (जेसी-243191एक्स), 15 नववरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बडे लाल (जेसी-243266के), 18 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार सुधीर कुमार (सं. 109889ए अब जेसी-244207के), 15 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार चमकौर सिंह (सं. 1087552डब्ल्यू अब जेसी-244217एन), 06 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार जयवीर सिंह (सं. 1089828एफ अब जेसी-244221डब्ल्यू), 31 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार जगवीर सिंह (सं. 15463855एक्स अब जेसी-244244एक्स), 02 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1098770डब्ल्यू अब जेसी-244308एक्स), 01 मई 2010

दफादार विनोद कुमार सिंह (सं. 1088129के अब जेसी-244309ए), 01 मई 2010

दफादार रवीन्द्र कुमार (सं. 17462391वाई अब जेसी-244333डब्ल्यू), 01 जून 2010

दफादार जगरूप सिंह (सं. 1099244के अब जेसी-244343ए), 28 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेश सिंह तनवार (सं. 15461873एफ अब जेसी-244348वाय), 06 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरप्रीत सिंह (सं. 15466378एम अब जेसी-244352एफ), 24 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार चन्द्र भान कुमार (सं. 1098734एल अब जेसी-244365वाय), 29 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार कुम्भार अनकुष नामदेव (सं. 1099434डब्ल्यू अब जेसी-244388ए), 29 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

दफादार बी वेन्कट राज (सं. 154661662वाय अब जेसी-244390एक्स), 29 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार जसपाल सिंह (सं. 1089943एफ अब जेसी-244393एल), 28 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार गजेन्द्र सिंह (सं. 1098694पी अब जेसी-244396वाई), 01 जून 2010

दफादार राजनीष कुमार (सं. 1098580एच अब जेसी-244398के),
02 जून 2010

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार समीर कुमार कुन्दु (सं. 1088512एच अब
जेसी-244399एम), 01 जून 2010

दफादार श्याम सुंदर शर्मा (सं. 1089383ए अब जेसी-244400डब्ल्यू),
01 जून 2010

दफादार सेखर जी (सं. 15461411पी जेसी-244412एल), 26 मई
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार जी मुन्नी स्वामी (सं. 1099861एफ जेसी-244414डब्ल्यू),
01 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार परमजीत सिंह (सं. 17461037एक्स अब जेसी-244417के),
29 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार एस एम रवी (सं. 1088462एच जेसी-244418एम), 19 मई
2010

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार शंकर झी (सं. 1099016एफ जेसी-244421एम), 01 जून
2010

दफादार प्रसन्ता कुमार सरकार (सं. 1099124एल जेसी-244422पी),
01 जून 2010

दफादार तरसेम लाल (सं. 15462615एन जेसी-244429वाय), 07 जून
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

दफादार हरनीलेश सिंह (सं. 15462976एम जेसी-244430एन),
05 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

दफादार शैलेन्द्र कुमार (सं. 17463220वाई जेसी-244431डब्ल्यू),
05 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार मुरारी लाल (सं. 15463693एक्स जेसी-244432वाय), 05 जून
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार सुनील कुमार (सं. 1546690पी जेसी-244434के), 05 जून
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार बलबीर सिंह राठोड (सं. 1099757वाई जेसी-244435एम),
08 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सुनील कुमार सामन्ता (सं. 15461456पी जेसी-244440एक्स),
05 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार एम डी मेराज खान (सं. 1098838एम अब जेसी-244351वाई),
27 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार जगवीर (सं. 1089879पी अब जेसी-244353के), 10 मई
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरमीन्द्र सिंह (सं. 1089979ए अब जेसी-244355पी), 15 मई
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार निरमल सिंह (सं. 1098649एच अब जेसी-244356एक्स),
15 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरमीत सिंह (सं. 1098732ए अब जेसी-244357ए), 17 मई
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरजंत सिंह सांद (सं. 1099090एच अब जेसी-244358एच),
17 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1099522एम अब जेसी-244361एच),
13 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार रूमेल सिंह (सं. 15462023के अब जेसी-244363एन),
25 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश जाखर (सं. 1089886एल अब जेसी-244366एफ),
16 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार ब्रिजेश यादव (सं. 1089914एम अब जेसी-244371एम),
16 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार रनजीत सिंह (सं. 15463962वाई अब जेसी-244370के),
14 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार भीम सिंह (सं. 15461818एल अब जेसी-244328एल),
03 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार दिनेश कुमार सिंह (सं. 1099710एन अब जेसी-244385एम),
13 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलवन्त सिंह (सं. 15462981एक्स अब जेसी-244383एफ),
06 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार मनोहर सिंह (सं. 1099135एक्स अब जेसी-244386पी),
15 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार रविन्द्र सिंह (सं. 15464241एफ अब जेसी-244389एच),
22 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार रमेश यादव (सं. 15461806डब्ल्यू अब जेसी-244392एच),
18 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार अमेदा राम (सं. 1099179पी अब जेसी-244394एल),
15 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार महीपाल सिंह जाखर (सं. 1099256वाई अब जेसी-244395डब्ल्यू),
15 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार जय भगवान (सं. 1089125ए अब जेसी-244411एच), 20 मई
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राठेड वामन मारुती (सं. 1099629एफ अब जेसी-244416एफ),
25 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार बिजय कुमार दत्ता (सं. 1099518के अब जेसी-244419पी),
09 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेश (सं. 15461060एल अब जेसी-244446वाई), 06 जुलाई
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र सिंह (सं. 15461186एल अब जेसी-244448के),
02 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार जसबीर सिंह (सं. 15461315ए अब जेसी-244449एम),
05 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार भरत सिंह (सं. 1089292डब्ल्यू अब जेसी-244471एक्स),
08 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

- दफादार गुरिन्द्र सिंह (सं. 1099285एन अब जेसी-244479के),
16 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार पवन कुमार (सं. 15461602के अब जेसी-244485एक्स),
01 जुलाई 2010
- दफादार लौंगबम बिनोद कुमार सिंह (सं. 15461661डब्ल्यू अब जेसी-244486ए), 02 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार रामभवन कुशवाह (सं. 1098755एफ अब जेसी-244490एच),
01 जुलाई 2010
- दफादार शिव सेवक पटेल (सं. 1099511ए अब जेसी-244472ए),
12 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- दफादार मेघ सिंह (सं. 15464195एक्स अब जेसी-244487एच),
08 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- दफादार जगजीत सिंह (सं. 15464290के अब जेसी-244489एन),
08 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार राज पाल सिंह नौरका (सं. 1098920एफ अब जेसी-244491एल),
01 जुलाई 2010
- दफादार शंकर माहातो (सं. 15463548ए अब जेसी-244498पी),
12 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
- दफादार उन्नीकृष्णन पी वी (सं. 15464677एम अब जेसी-244506एच),
25 जून 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- दफादार हाकम अली खान (सं. 1099010ए अब जेसी-244501के),
05 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई 2010 से दी जाती है)
- दफादार मनोहर लाल (सं. 15463380वाई अब जेसी-244505ए),
10 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)
- दफादार परिमल घोष (सं. 1099407एम अब जेसी-244510एल),
07 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार दिवाकरन पी (सं. 1089451एच अब जेसी-244511एन),
05 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार जीतेन्द्र सिंह (सं. 1098638डब्ल्यू अब जेसी-244513वाई),
03 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार अनिल कुमार के के (सं. 1098700एक्स अब जेसी-244514एफ),
03 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार सुरजान सिंह (सं. 1099186एल अब जेसी-244517पी),
13 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार पालेकर सुरेश गुलाब राव (सं. 15461733पी अब जेसी-244518एक्स), 12 जुलाई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)
- दफादार सोहन लाल (सं. 1088105ए अब जेसी-243878एफ),
06 नवम्बर 2009 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)
- दफादार परभने नवनाथ गेनाजी (सं. 1099253एल अब जेसी-244144एम), 08 मई 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार राकेश कुमार उरमालीया (सं. 15463159ए अब जेसी-244387एक्स), 07 जून 2010 *
- *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार रायभान तातेयराव निरमल (सं. 1088785एल अब जेसी-244264एल), 05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राकेश चन्द्र (सं. 1099510एक्स अब जेसी-244320वाई), 12 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरजीत सिंह (सं. 1099295एक्स अब जेसी-244316डब्ल्यू), 02 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार चिडी सिंह (सं. 1098613के अब जेसी-244327एच), 01 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार विरेन्द्र प्रताप यादव (सं. 1089918एच अब जेसी-244324पी), 19 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार जगत पाल (सं. 15463030एम अब जेसी-244330एच), 14 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार कनैया लाल पाण्डे (सं. 15463224पी अब जेसी-244331एल), 14 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार जनक राज (सं. 1098872एम अब जेसी-244344एच), 10 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार मुनेन्द्र सिंह तोमर (सं. 15461917एन अब जेसी-244349एफ), 11 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार शिष राम भगोड (सं. 15461499के अब जेसी-244350डब्ल्यू), 12 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार शत्रुघन सिंह तोमर (सं. 15461205एल अब जेसी-244362एल), 03 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 17461004एम अब जेसी-244368एम), 16 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 15461986के अब जेसी-244401वाई), 01 जून 2010*

दफादार गजेन्द्र सिंह (सं. 15462242एल अब जेसी-244402एफ), 01 जून 2010*

दफादार बिजेन्द्र सिंह (सं. 15464266एन अब जेसी-244408एच), 25 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार रामबीर सिंह (सं. 1098861ए अब जेसी-244410ए), 25 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार वी स्टेफन (सं. 15467434एम अब जेसी-244415वाई), 25 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेश कुमार (सं. 1089131एन अब जेसी-244420के), 01 जून 2010

दफादार सुमीत कुमार घोष (सं. 15462861वाई अब जेसी-244436पी), 07 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार पी सीनीवासगम (सं. 15462720के अब जेसी-244437एक्स), 07 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार हिमांशू मन्डल (सं. 15462814एफ अब जेसी-244438ए), 07 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार एस पी मोहन (सं. 15462914एम अब जेसी-244439एच), 09 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार एम चन्द्र सेकरन (सं. 1089966एच अब जेसी-244441ए),
08 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार निमबलकर अनील हन्स राज (सं. 1089980पी अब
जेसी-244442एच), 08 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार तेज भान सिंह (सं. 1089881एम अब जेसी-244451के),
14 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सोमवीर (सं. 15463227एच अब जेसी-244452एम),
14 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार विक्रम सिंह (सं. 15463218एफ अब जेसी-244453पी),
10 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार महेन्द्र सिंह (सं. 15462667वाई अब जेसी-244454एक्स),
12 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार महा राम (सं. 1089902एक्स अब जेसी-244455ए),
12 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार कलियान विश्नेई (सं. 1089373डब्ल्यू अब जेसी-244456एच),
10 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार श्री कृष्ण (सं. 1089416ए अब जेसी-244457एल),
10 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार अंग्रेज सिंह (सं. 1089019एफ अब जेसी-244322के),
06 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र सिंह शेकावत (सं. 15465755एल अब जेसी-244329एन),
26 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार बलवन्त सिंह (सं. 15462651वाई अब जेसी-244407ए),
01 जुलाई 2010

दफादार आनंद सिंह (सं. 1098636एल अब जेसी-244423एक्स),
01 जुलाई 2010

दफादार पदम सिंह राठोड (सं. 1098689के अब जेसी-244424ए),
01 जुलाई 2010

दफादार शंकर सिंह शेकावत (सं. 15466367ए अब
जेसी-244463वाई), 26 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार कृष्ण पाल (सं. 15461042एच अब जेसी-244465के),
18 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार सतपाल सिंह (सं. 15461034के अब जेसी-244466एम),
18 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रेम सिंह (सं. 15461123एच अब जेसी-244467पी), 19 जून
2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 15461108एन अब जेसी-244468एक्स),
18 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार ईन्द्र पाल सिंह (सं. 1098775पी अब जेसी-244403के),
03 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 06 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार सुखचैन सिंह (सं. 1088923एफ अब जेसी-244404एम),
03 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार रमेश कुमार (सं. 1099294पी अब जेसी-244405पी),
03 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार सुखवीर सिंह (सं. 1089536वाई अब जेसी-244406एक्स),
03 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार रामवीर सिंह (सं. 1089323एल अब जेसी-244478एफ),
03 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार जगतार सिंह (सं. 15461052एम अब जेसी-244496के),
04 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार परगत सिंह (सं. 15461153ए अब जेसी-244497एम),
04 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार काना राम जाट (सं. 1099011एच अब
जेसी-244499एक्स), 18 जून 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार उपेन्द्र सिंह भदोरिया (सं. 15463071डब्ल्यू अब जेसी-244502एम),
08 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार करमजीत सिंह (सं. 15461184ए अब जेसी-244503पी),
04 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार अशवनी कुमार (सं. 1088968एफ अब जेसी-244507एल),
08 जुलाई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार अरधी बेनु गोपाल राव (सं. 1089856एन अब जेसी-244124वाई),
01 अप्रैल 2010

दफादार तेजपाल (सं. 1089908वाई अब जेसी-244158एम),
01 अप्रैल 2010

दफादार जील्ले सिंह (सं. 1098600एम अब जेसी-244159पी),
01 अप्रैल 2010

दफादार सतीश कुमार (सं. 15461299एन अब जेसी-244160के),
01 अप्रैल 2010

दफादार मुनाडे भिमराव हनमन्तराव (सं. 15461448डब्ल्यू अब
जेसी-244166एल), 01 अप्रैल 2010

दफादार दिलीप सिंह (सं. 15461094वाई अब जेसी-244169वाई),
01 अप्रैल 2010

दफादार विरेन्द्र कुमार (सं. 1089776डब्ल्यू अब जेसी-244170एन),
01 अप्रैल 2010

दफादार करमजीत सिंह (सं. 1098648ए अब जेसी-244171डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

दफादार करनबीर सिंह (सं. 15461079के अब जेसी-244172वाई),
01 अप्रैल 2010

दफादार बलबीर सिंह (सं. 15463948एम अब जेसी-244204डब्ल्यू),
27 मार्च 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार कल्याण सिंह (सं. 15464140एन अब जेसी-244206एफ),
01 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार काले सावता बाबु (सं. 15462889वाई अब जेसी-244210के),
06 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार विरेन्द्रपाल सिंह (सं. 1089660ए अब जेसी-244211एम),
12 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरुमुख सिंह (सं. 15465004के अब जेसी-244212पी),
05 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार मुमताज अली (सं. 1089159एन अब जेसी-244214ए),
05 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश (सं. 1089486वाई अब जेसी-244215एच),
05 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सतीश कुमार के एन (सं. 1089544एक्स अब जेसी-244216एल),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेश कुमार (सं. 1089618एफ अब जेसी-244218डब्ल्यू),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सुशील कुमार मेशी (सं. 1089640एम अब जेसी-244219वाई),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सुखविन्द्र सिंह (सं. 1089806एच अब जेसी-244220एन),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सत्या नन्दा महन्ता (सं. 1099397एन अब जेसी-244222वाई),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सुजान सिंह (सं. 1088954एफ अब जेसी-244232एच),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार भिम राज (सं. 15461581वाई अब जेसी-244237एफ),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राजबीर सिंह (सं. 15461594डब्ल्यू अब जेसी-244239एम),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेश कुमार (सं. 15461945ए अब जेसी-244240एफ),
01 अप्रैल 2010

दफादार राकेश कुमार जसवाल (सं. 15462570वाई अब
जेसी-244247एल), 01 अप्रैल 2010

दफादार करमजीत सिंह (सं. 15466011एम अब जेसी-244255के),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र सिंह (सं. 15466021डब्ल्यू अब जेसी-244256एम),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार अजय सिंह (सं. 15462839एन अब जेसी-244259ए),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार हाकम सिंह (सं. 15461996एन अब जेसी-244265एन),
01 अप्रैल 2010

दफादार गज राज सिंह (सं. 1087997के अब जेसी-244268एफ),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार जय भादुर सिंह (सं. 1098632पी अब जेसी-244269के),
06 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार शालेन्द्र कुमार सिंह (सं. 1088933एल अब जेसी-244272के),
07 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार ओमपाल सिंह (सं. 1089260एन अब जेसी-244274पी),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राजविन्द्र सिंह (सं. 15462736पी अब जेसी-244276ए),
01 अप्रैल 2010

दफादार दिवान सिंह (सं. 1089605के अब जेसी-244277एच),
06 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार रमेश चन्द (सं. 1089534एन अब जेसी-244278एल),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरविन्द्र सिंह भुल्लर (सं. 15462582एन अब
जेसी-244284वाई), 01 अप्रैल 2010

दफादार गुरजीत सिंह (सं. 15463098एन अब जेसी-244287एम),
01 अप्रैल 2010

दफादार जगरूप सिंह (सं. 15463194एच अब जेसी-244288पी),
01 अप्रैल 2010

दफादार हरमीत सिंह (सं. 15463943एन अब जेसी-244289एक्स),
01 अप्रैल 2010

दफादार जरनेल सिंह (सं. 15463735वाई अब जेसी-244290एम),
01 अप्रैल 2010

दफादार अरविन्द कुमार अत्रीश (सं. 1088982एन अब जेसी-244295एल), 08 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार हर्शा एन वी (सं. 15462913के अब जेसी-244296एन),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार भरत सिंह नथावत (सं. 1089095एन अब जेसी-244297डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार लाल भादुर सिंह (सं. 1087890पी अब जेसी-244298वाई),
07 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप चन्द शर्मा (सं. 15464192के अब जेसी-244299एफ), 05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार डी रामाराजन (सं. 15467347एन अब जेसी-244300एल),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार संकरन के (सं. 1099357एम अब जेसी-244302डब्ल्यू),
07 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र कुमार (सं. 1098924एक्स अब जेसी-244305के),
02 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार संजीव कुमार (सं. 1098919एम अब जेसी-244306एम),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार संजीव सिंह (सं. 1088729एम अब जेसी-244307पी),
01 अप्रैल 2010

दफादार जतीन्द्र सिंह (सं. 1089297पी अब जेसी-244314एल),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार राया सिंह (सं. 1099222एल अब जेसी-244315एन),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार देवेन्द्र सिंह भदौरिया (सं. 1089385एल अब जेसी-244317वाई), 12 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार बी आर वी अप्पा राव (सं. 1099490पी अब जेसी-244318एफ), 19 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राम सिंह (सं. 1099506पी अब जेसी-244319के), 12 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेश कुमार (सं. 1099743एच अब जेसी-244321एफ),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 1089079डब्ल्यू अब जेसी-244323एम),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरजीत सिंह (सं. 1089644एच अब जेसी-244142एफ),
20 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार तरसेम सिंह (सं. 15462420एच अब जेसी-244149एल),
01 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 29 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार हरवीर सिंह (सं. 15461069एअब जेसी-244152एल),
30 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार विजय कुमार (सं. 1099269डब्ल्यू अब जेसी-244162पी),
25 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार द्वारापु रेड्डी आर एन राव (सं. 15461557एच अब
जेसी-244167एन), 01 मई 2010

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 1087217एन अब जेसी-244185डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2010

दफादार सत्याबीर (सं. 1087267वाई अब जेसी-244188के), 01 अप्रैल
2010

दफादार कौशलेश वर्मा (सं. 1099499के अब जेसी-244189एम),
01 मई 2010*

दफादार विजय सिंह (सं. 15464119एल अब जेसी-244205वाई),
17 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार पवन कुमार राठौर (सं. 1099424एम अब जेसी-244223एफ),
12 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार राम बिहार सिंह (सं. 15461649पी अब जेसी-244224के),
11 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 12 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार मुरुगानन्दम एस (सं. 1099595वाई अब जेसी-244233एल),
05 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेश कुमार (सं. 1088385वाई अब जेसी-244236वाई),
16 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार विजय सिंह (सं. 15462868एच अब जेसी-244241के),
01 अप्रैल 2010

दफादार अशोक कुमार (सं. 1099703एक्स अब जेसी-244242एम),
01 अप्रैल 2010

दफादार बाबु राम भट्टियार (सं. 15463934एम अब जेसी-244245ए),
06 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार विरेन्द्र कुमार (सं. 15461379एल अब जेसी-244248एन),
01 मई 2010

दफादार शिरूनवुक्कारासु (सं. 1099589एल अब
जेसी-244249डब्ल्यू), 01 मई 2010

दफादार मेघ सिंह (सं. 15462643ए अब जेसी-244250एल), 01 मई
2010

दफादार भोसले अरून तानाजी (सं. 1088340वाई अब
जेसी-244251एन), 01 मई 2010

दफादार राजोले बाबुवानतीप्पा रेड्डी (सं. 1088314एक्स अब
जेसी-244252डब्ल्यू), 01 मई 2010

दफादार भोला सिंह (सं. 1088482डब्ल्यू अब जेसी-244253वाई),
01 मई 2010

दफादार सुरेश बाबु सी जी (सं. 15461308के अब जेसी-244263एच),
14 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सियादी नागेश्वरा राव (सं. 1099485के अब
जेसी-244282एन), 10 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार यल्लाप्पा बुदीडाल (सं. 1099539ए अब जेसी-244285एफ),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार आर पेरूमल (सं. 1099749ए अब जेसी-244286के),
03 अप्रैल 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार उदय सिंह (सं. 1099742डब्ल्यू अब जेसी-244301एन),
11 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार पी पीतवाईमनी (सं. 15462501एच अब जेसी-244303वाई),
23 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार बसंत सिंह (सं. 1098870एफ अब जेसी-244304एफ),
07 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरुदेव सिंह (सं. 15463091के अब जेसी-244310पी),
12 मई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरजीत सिंह (सं. 1089695डब्ल्यू अब जेसी-244311एक्स),
22 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार गजेन्द्र सिंह शेखावत (सं. 15462231वाई अब
जेसी-244312ए), 06 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार चायना सामी जी (सं. 15463304एम अब
जेसी-244313एच), 06 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार विक्रमजीत सिंह (सं. 15461182पी अब
जेसी-244325एक्स), 01 मई 2010

दफादार क्षीरोडा कुमार खतुआ (सं. 1089757एल पी अब
जेसी-244326ए), 01 मई 2010

दफादार वरूडकर नेताजी केरबा (सं. 1087005एच अब
जेसी-244335एफ), 22 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र सिंह (सं. 1088278एक्स अब जेसी-244336के),
09 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार विरेन्द्र सिंह (सं. 1089568एफ अब जेसी-244337एम),
09 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार दिलीप बोराई (सं. 1089779के अब जेसी-244338पी),
09 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार बनवारी सिंह (सं. 1098774एम अब जेसी-244339एक्स),
21 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार संतोष कुमार सिंह (सं. 15461102एम अब जेसी-244340एम),
21 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार महावीर सिंह (सं. 15461567एम अब जेसी-244341पी),
21 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार यशवीर सिंह (सं. 1098806के अब जेसी-244342एक्स),
20 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेश कुमार शुक्ला (सं. 1089364पी अब
जेसी-244345एल), 24 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार अनिरुद्ध कुमार गुप्ता (सं. 1089399एल अब
जेसी-244346एन), 24 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार सूरज सिंह (सं. 1089413एम अब जेसी-244347डब्ल्यू),
24 अप्रैल 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार ब्राजेश कुमार शर्मा (सं. 15462223ए अब जेसी-
244354एम), 14 मई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेश सिंह (सं. 1099125एन अब जेसी-244359एल),
02 मई 2010 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार किष्णा नारायण सिंह (सं. 1099126डब्ल्यू अब जेसी-244360ए), 02 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार कोतवाल सिंह (सं. 1084954के अब जेसी-244364डब्ल्यू), 02 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार दशरथ लाल (सं. 1089919एल अब जेसी-244369पी), 01 मई 2010

दफादार बलवीर सिंह (सं. 15461620एम अब जेसी-244372पी), 14 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार बनेश्वर गुप्ता (सं. 15461440के अब जेसी-244373एक्स), 01 मई 2010

दफादार मुख्तियार सिंह (सं. 15461502वाई अब जेसी-244374ए), 04 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार लखविन्द्र सिंह (सं. 1089702एफ अब जेसी-244375एच), 07 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र कुमार (सं. 1099318एन अब जेसी-244376एल), 03 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार सत्या पाल सिंह (सं. 15462369एन अब जेसी-244377एन), 01 मई 2010

दफादार महेन्द्र सिंह तोमर (सं. 15462370एच अब जेसी-244378डब्ल्यू), 01 मई 2010

दफादार पवन कुमार (सं. 15463253के अब जेसी-244379वाई), 01 मई 2010

दफादार धरमवीर सिंह (सं. 15461318एन अब जेसी-244380एन), 01 मई 2010

दफादार चन्द्र पाल सिंह (सं. 15461878ए अब जेसी-244381डब्ल्यू), 03 मई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार अमर सिंह (सं. 15464124डब्ल्यू अब जेसी-244382वाई), 01 मई 2010

दफादार मेहार सिंह (सं. 15461671ए अब जेसी-244384के), 01 मई 2010

दफादार बेन्नी टी एम (सं. 15461457एक्स अब जेसी-244413एन), 16 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार सिंह (सं. 1099726वाई अब जेसी-244444एन), 18 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार सुशील कुमार (सं. 1099728के अब जेसी-244445डब्ल्यू), 09 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार एन नागाराज रेड्डी (सं. 1099699ए अब जेसी-244464एफ), 28 जून 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार मोहम्मद मुखसिती खान (सं. 15461608एल अब जेसी-244470पी), 16 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार राजन तलेकर (सं. 15461990एम अब जेसी-244474एल), 16 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार गुरप्रीत सिंह रंधावा (सं. 15466698एफ अब जेसी-244473एच), 16 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार हरमेल सिंह (सं. 15467367एम अब जेसी-244477वाई), 16 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार भुपिन्द्र सिंह (सं. 15467294एल अब जेसी-244475एन), 23 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार बी रंगा स्वामी रेड्डी (सं. 15468161एफ अब जेसी-244476डब्ल्यू), 14 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार नीछतर सिंह (सं. 15461185एच अब जेसी- 244480वाई), 01 जुलाई 2010

दफादार मनजीत सिंह (सं. 15461202एक्स अब जेसी-244481एफ), 01 जुलाई 2010

दफादार जय पाल (सं. 1099707एन अब जेसी- 244482के), 01 जुलाई 2010

दफादार रविन्द्र सिंह (सं. 15461513एल अब जेसी- 244483एम), 14 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार जितेन्द्र कुमार (सं. 1099531एन अब जेसी- 244484पी), 07 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रेम सिंह भादोरिया (सं. 10891516ए अब जेसी-244493डब्ल्यू), 22 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार करमवीर सिंह (सं. 1099054एक्स अब जेसी-244521एक्स), 14 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार परमीन्द्र सिंह (सं. 1098964वाई अब जेसी- 244522ए), 17 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार सुशील कुमार (सं. 15464650पी अब जेसी-244523एच), 17 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार भूपेन्द्र कुमार (सं. 1089261डब्ल्यू अब जेसी-244524एल), 16 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार जया कृष्णन पी (सं. 1089289डब्ल्यू अब जेसी-244525एन), 16 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार रमेन्द्रा कुमार (सं. 15461773डब्ल्यू अब जेसी-244526डब्ल्यू), 19 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार हरविन्द्रजीत सिंह (सं. 15462065डब्ल्यू अब जेसी-244527वाई), 14 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार सुभाष चन्द्र (सं. 15461675डब्ल्यू अब जेसी-244529के), 20 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार टीकम सिंह (सं. 15461692डब्ल्यू अब जेसी-244531एफ), 19 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार दलजीत सिंह (सं. 1098675के अब जेसी- 244535एक्स), 17 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार वारियम सिंह (सं. 1099444ए अब जेसी- 244537एच), 17 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार रामेश्वर लाल जाट (सं. 1098726एम अब जेसी-244539एन), 20 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार मनजीत सिंह (सं. 15461839एफ अब जेसी-244541एल), 20 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार मालू श्रीनीवास रेड्डी (सं. 15462013ए अब जेसी-244542एन), 19 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2010 से दी जाती है)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सेना शाखा

सं. 626, दिनांक 11 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

ओ आर डी ए क्यू ए, बैंगलोर के निदेशक श्री वी ओ जनार्दनन को 11 मई 2010 (पूर्वाह्न) से उप महानिदेशक (दक्षिण अंचल), बैंगलोर के रूप में।

ओ आर डी ए क्यू ए, कोरापुट के निदेशक श्री जी एस अहलूवालिया को 24 मई 2010 (पूर्वाह्न) से उप महानिदेशक (मुख्यालय), नई दिल्ली के रूप में।

विनीत सैनी
अवर सचिव

सं. 628, दिनांक 12 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

ले कर्नल एस के डोगरा (टीए-41936) (इन्फैन्ट्री), 30 अप्रैल 2010 (अप)

जय राज
अवर सचिव

सं. 627, दिनांक 12 अक्टूबर 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री डाल चन्द (जन्म तिथि : 09 अगस्त 1950 तथा एस क्यू-2003) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 अगस्त 2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्रीमती प्रेमजीत कुमार (जन्म तिथि : 15 जुलाई 1950 तथा एस क्यू-2006) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 जुलाई 2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के मुरली
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 629, दिनांक 12 अक्टूबर 2010--सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त होने पर श्री एम के पांडे, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) डी. आर. डी. ओ., मुख्यालय नई दिल्ली से दिनांक 31 अगस्त 2010 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हुए तथा दिनांक 01 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किये गये।

पी एन रेड्डी
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th November 2010

No. 618, dated 7th October 2010—The President is pleased to appoint Smt. Anjali Singh, IA&AS (1996), Deputy Secretary, Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 5 July 2010 (FN) up to 15 Jan 2012, or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Smt. Gitanjali Gupta Kundra, IAS (1996), Deputy Secretary, Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 01 Jul 2010 (FN) up to 20 Aug 2012, or until further orders, whichever is earlier.

Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List (Part) of CSS for the year 2009 by the Department of Personnel and Training vide their OM No. 4/2/2010-CS.I(D) dated the 1st July, 2010, the President is pleased to appoint Shri N. K. Sarwal, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence as Deputy Secretary of CSS in the same Ministry on regular basis w.e.f. 1 Jul 2010 (FN).

2. The promotion of the above officer is subject to final orders of Hon'ble CAT in OA No. 1864/2009 presently pending before the Hon'ble CAT, Kolkata in the matter relating to Ms. Garima Singh Vs UoI & Ors.

The President is pleased to appoint Shri Kul Bhushan Nayyar, (CSL No. 6632), CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Power to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 25 Jun 2010 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/3/2010-CS I(U) dated the 26th May, 2010.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad hoc) is subject to following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs UoI & Ors pending before the CAT, New Delhi.

The President is pleased to appoint Shri Gurdeep Singh Manaktahla (CSL No. 6508), CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Urban Development, Directorate of Estates to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 25 Jun 2010 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/3/2010-CS I(U) dated the 26th May, 2010.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad hoc) is subject to following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in

the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.

- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid ad-hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs UoI & Ors pending before the CAT, New Delhi.

The President is pleased to appoint Shri Rajan Kumar Jha, (CSL No. 6426), CSS, Section Officer borne on the strength of the Ministry of Information & Broadcasting to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Ministry of Defence w.e.f. 6 Jul 2010 (FN), until further orders in terms of DOP&T Order No. 5/3/2010-CS I(U) dated the 26th May, 2010.

2. The appointment of the above officer as Under Secretary (ad hoc) is subject to following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs UoI & Ors pending before the CAT, New Delhi.

The President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following regular Stenographers Grade 'C' borne on the CSSS cadre, presently officiating as Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the Revised Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-, for a further period mentioned against each or till regular Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier:—

Name (S/Shri), From, To

Smt. Vijay Narang, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Smt. Mariamma George, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Ashok Kumar, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Smt. Shakti Bala Bakshi, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Dharam Vir, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Mohd. Gohar Hussain, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Rajinder Prasad, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Harbans Lal, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Anil Kumar, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Chander Kumar, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Rajbir Singh Dabas, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Ashok Kumar, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Smt. Urmil Gaba, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Sanjay Mahani, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

V. D. Sharma, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Jai Inder Rai, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Pramod Sharma, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Mahender Kumar, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

Davinder Kumar, 01 Jul 2010—31 Dec 2010

2. The ad hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS (Private Secretary).

3. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

Consequent on inclusion of her name in the Select List (Seniority Quota) of Stenographers Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers' Service for the year 2007, the President is pleased to appoint Smt. A. Ganga, a regular Stenographers Grade 'C' borne on the cadre of this Ministry to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence with effect from 01 Jun 2010.

K MURALI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 619, dated the 7th October 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

MJK Chaturbhai, TA (M)-1225, AMC (TA), 28 Feb 2009 (FN)

R J Choudhary, TA (M)-1226, AMC (TA), 28 Feb 2009 (FN)

Himanshu Panchal, TA (M)-1227, AMC (TA), 28 Feb 2009 (FN)

JAI RAJ
Under Secy

No. 620, dated 7th October 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj SV Waghmare, TA-42236, Rly (TA), 01 Aug 2009

Maj Narendra Kumar, TA-42245, Rly (TA), 09 Aug 2009

Maj S K Choudhary, TA-42274, Rly (TA), 29 May 2010

To be Maj

Capt KS Verma, TA-42485, Rly (TA), 27 Sep 2008

Capt D Somasundaram, TA-42526, ASC (TA), 11 Mar 2010

Capt Om Prakash, TA-42535, Engr (TA), 22 Apr 2010

Capt A Ayyappan, TA-42536, Engr (TA), 10 Jun 2010

Capt MSC Choudhary, TA-42537, Engr (TA), 10 Jun 2010

JAI RAJ
Under Secy

No. 621, dated 8th October 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

RECORDS THE MIR

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Surander Kumar Thakur (JC-419203M), 01 Jun 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Hom Bahadur Thapa (JC-420981K), 13 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Alak Nath Samanta (JC-421024L), 17 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Uday Singh (JC-421067A), 04 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahipal Singh (JC-421087N), 17 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bed Singh (JC-420355A), 01 Apr 2010

Nb Sub Dilawar Singh (JC-420433M), 01 Apr 2010

Nb Sub Gulab Singh (JC-420576M), 01 Apr 2010

Nb Sub Satya Pal Singh (JC-420687K), 01 Apr 2010

Nb Sub Immamuddin Ahmad (JC-420812H), 6 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 23 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Adesh Kumar Singh (JC-420512F), 13 May 2010

Nb Sub Omana Kuttan Pillai S (JC-420681H), 14 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Substantive Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

To be Subs Major (Clerk)

Sub (Clk) Partap Singh Parasar (JC-419028H), 01 Jul 2010

To be Subs Sub (Clerk)

Nb Sub (Clk) Santosh Kumar Behera (JC-420593M), 01 Jul 2010

Nb Sub (Clk) Raj Kumar (JC-420615A), 12 Jul 2010*

*[Granted seniority in the rank of Substantive Sub (Clerk) wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances]

Nb Sub (Clk) Anil Kumar Gupta (JC-420560F), 01 May 2010

Nb Sub (Clk) Samir Kumar Mishra (JC-420592K), 01 May 2010

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Jadav Rajendra Ram Rao (No. 2594271H now JC-421599A), 01 Jul 2010

Hav (Clk) Jug Mohan Lal Yadav (No. 14916101K now JC-421600K), 03 Jul 2010*

*[Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) with effect from 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances]

Hav (Clk) Jagdeesh Prasad (No. 14914543K now JC-421596M), 02 May 2010*

*[Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) with effect from 01 May 2010 without effect on pay and allowances]

Hav (Clk) Jai Pal Singh (No. 14913823L now JC-421597P), 07 May 2010*

*[Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) with effect from 01 May 2010 without effect on pay and allowances]

Hav (Clk) Ravi Prasad Sharma (No. 14915969X now JC-421598X), 01 May 2010

To be Nb Sub

Hav VN Satish Kumar (No. 14917720K now JC-421584X), 08 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav K Sidheeq (No. 14915981Y now JC-421585A), 27 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Balwant Singh (No. 14916170A now JC-421586H), 15 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramavtar (No. 14915793X now JC-421587L), 25 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Atakari Venkateswarlu (No. 14917537F now JC-421588N), 01 Apr 2010

Hav Chandra Sheker Rama Koli (No. 14918780L now JC-421589W), 01 May 2010

Hav Baria Rayji Bhai Sona Bhai (No. 14915094M now JC-421590L), 01 Jun 2010

Hav Dipankar De (No. 14915387X now JC-421591N), 01 Jun 2010

Hav Rakendra Singh (No. 14916142N now JC-421592W), 01 Jun 2010

Hav Bal Krishna (No. 14916703X now JC-421593Y), 01 Jun 2010

Hav Lokendra Singh (No. 14918576M now JC-421594F), 02 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav K Melico Rajan (No. 14916905Y now JC-421595K), 01 Jun 2010

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 622, dated the 8th October 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Govindan Samy Narayanan (JC-143460K), 01 Jul 2010

Sub Inderjit Singh (JC-221097N), 01 Jul 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Abdul Rashid (JC-592451A), 01 May 2010

Nb Sub Tirath Singh (JC-419159N), 01 Jul 2010

Nb Sub Ranbir Singh (JC-239335X), 01 Jul 2010

Nb Sub Onkar Nath Mishra (JC-261293W), 01 Jul 2010

Nb Sub Chandan Giri Goswami (JC-539244M), 01 Jul 2010

Nb Sub Bas Ram Jat (JC-264475P), 01 Jul 2010

Nb Sub Surendra Kumar Rai (JC-180923L), 01 Jul 2010

Nb Sub Yam Bahadur Thapa (JC-617075P), 01 Jul 2010

Nb Sub Gopal Singh (JC-220859K), 01 Jul 2010

Nb Sub Yam Bahadur Thapa (JC-612039W), 01 Jul 2010

Nb Sub Raj Paul (JC-428483M), 01 Jul 2010

Nb Sub Gurmail Singh (JC-841490P), 01 Jul 2010

To be Subs Sub (Clk)

Nb Sub Hakim Singh (JC-842029L), 01 Jul 2010

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Durai Raju S (JC-166275H), 01 Jun 2010

Sub Jayamal Singh Sajwan (JC-166095A), 01 Jun 2010

Sub Pariadh Singh Dalpatia (JC-216655A), 01 Jun 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Parshotam Lal Sharma (JC-641996K), 01 May 2010

Nb Sub Jia Lal (JC-579166H), 01 Jun 2010

Nb Sub Jagrup Chand Katoch (JC-239484L), 01 Jun 2010

Nb Sub Satish Kumar Sharma (JC-519363F), 01 Jun 2010

Nb Sub Govind Singh (JC-412486W), 01 Jun 2010

Nb Sub Jaipal Singh (JC-529185X), 01 Jun 2010

Nb Sub Jagdish Singh (JC-519357N), 01 Jun 2010

Nb Sub Amin Chand (JC-519623F), 01 Jun 2010

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 623, dated the 8th October 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Sub Maj

Sub Bhuwan Chandra Bhatt (JC-802519W), 01 Feb 2010

Sub Yogesh Chandra (JC-802526M), 01 Mar 2010

Sub Satish Chandra (JC-802550H), 01 Mar 2010

Sub Pramod Kumar K (JC-802562X), 02 Mar 2010@

@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Rajendra Kumar (JC-802568Y), 01 Apr 2010

Sub Tirath Singh (JC-802572F), 01 Apr 2010

Sub Daya Shankar Mishra (JC-802403A), 03 Nov 2009@

Sub Suresh Kumar Tiwari (JC-802416X), 10 Nov 2009@

@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Satish Chandra Barthwal (JC-802417A), 01 Jan 2010

Sub Komal Singh (JC-802509M), 01 Jan 2010

Sub Yashpal Singh (JC-802368H), 03 Jul 2009@

@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Nrusingho Charana Padhi (JC-802383X), 01 Aug 2009

Sub Rajpati Yadav (JC-802388W), 01 Aug 2009

Sub Prahlad Singh (JC-802389Y), 01 Aug 2009

Sub Vijendra Pal Singh (JC-802400M), 01 Sep 2009

Sub Gabar Singh Bisht (JC-802401P), 01 Sep 2009

Sub Lalji Upadhyay (JC-802415P), 01 Nov 2009

To be Sub

Nb Sub Vinod Kumar Tripathi (JC-803342A), 27 Aug 2009\$

\$(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ashok Kumar Singh (JC-803425L), 01 Aug 2009&

&(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ravinder Pal Singh (JC-803527F), 27 May 2009*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shiv Kumar Singh (JC-803550P), 15 Jul 2009@

Nb Sub Veer Pal Singh Ahlawat (JC-803551X), 01 Jul 2009

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahendra Singh Rathore (JC-803557Y), 01 Aug 2009

Nb Sub Rajesh Pratap Singh (JC-803559K), 01 Aug 2009

Nb Sub Vinod Kumar (JC-803560Y), 01 Aug 2009

Nb Sub Shashi Bhushan Singh Rawat (JC-803562K), 01 Aug 2009

Nb Sub Kartick Chandra Patra (JC-803563M), 01 Aug 2009

Nb Sub Jagjit Singh (JC-803564P), 01 Aug 2009

Nb Sub Sakal Deo Singh (JC-803569N), 01 Aug 2009

Nb Sub Suryanath Yadav (JC-803570H), 01 Aug 2009

Nb Sub Raghubir Singh (JC-803571L), 17 Aug 2009**

Nb Sub Raj Kumar (JC-803572N), 01 Aug 2009

Nb Sub Narendra Pal Singh (JC-803573W), 01 Aug 2009

Nb Sub Patil Shivjirao Baburao (JC-803575F), 01 Aug 2009

Nb Sub Raj Kumar Singh (JC-803576K), 01 Aug 2009

** (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sone Lal (JC-803378Y), 10 Sep 2009#
 # (Granted seniority in the rank of Sub wef 09 Aug 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Debangshu Hazra (JC-803577M), 01 Sep 2009
 Nb Sub Paramjit Singh (JC-803578P), 01 Sep 2009
 Nb Sub Mathai Kunhu PP (JC-803580M), 25 Sep 2009\$\$
 Nb Sub Siba Sankar Prusty (JC-803581P), 01 Oct 2009\$\$
 Nb Sub Laxman Singh (JC-803582X), 01 Sep 2009
 Nb Sub Suresh Chandra Tiwari (JC-803584H), 01 Sep 2009
 \$\$ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Prem Chandra Pal (JC-803585L), 01 Oct 2009
 Nb Sub Anil Kumar (JC-803587W), 01 Oct 2009
 Nb Sub/Clk Munnuer Lal (JC-803647A), 01 Oct 2009
 Nb Sub Chand Singh (JC-803591Y), 06 Nov 2009@@
 Nb Sub/Clk Vijay Raj Singh Bist (JC-803706F), 01 Nov 2009
 @@ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Satya Prakash Mahapatra (JC-803583A), 01 Sep 2009
 Nb Sub Rajender Singh (JC-803588Y), 05 Dec 2009&
 Nb Sub Saseendran VK (JC-803592F), 03 Nov 2009&
 Nb Sub Chhabil Dass (JC-803595P), 09 Nov 2009&
 & (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Devendra Pal Singh (JC-803599L), 01 Dec 2009
 Nb Sub/Clk Suneel Kumar Sharma (JC-803718W), 01 Dec 2009
 Nb Sub Murlidhar Pandey (JC-803600P), 01 Jan 2010
 Nb Sub Om Prakash Dwivedi (JC-803601X), 01 Jan 2010
 Nb Sub Ravindra Singh Rawat (JC-803603H), 01 Jan 2010
 Nb Sub Hem Singh (JC-803605N), 01 Jan 2010
 Nb Sub Bajrang Lal (JC-803607Y), 01 Jan 2010
 Nb Sub Satyavir Singh Yadav (JC-803608F), 01 Jan 2010
 Nb Sub Tarsem Singh (JC-803561F), 31 Aug 2009@
 @ (Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Rabindra Nath Thakur (JC-803586N), 01 Apr 2010#
 # (Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Umakanta Baral (JC-803596X), 05 Mar 2010\$
 Nb Sub Lavkush Kumar Sharma (JC-803597A), 18 Jan 2010\$
 \$ (Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Samiran Ghosh (JC-803505H), 31 Dec 2009&
 & (Granted seniority in the rank of Sub with effect from 27 Nov 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Brij Chandra Yadav (JC-803556W), 15 Feb 2010*
 * (Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Onkar Nath Tripathi (JC-803609K), 01 Feb 2010
 Nb Sub Dev Karan (JC-803610F), 01 Feb 2010
 Nb Sub Pitamber Mishra (JC-803611F), 01 Feb 2010
 Nb Sub Mohan K (JC-803612K), 09 Feb 2010@@
 Nb Sub Vijendra Kumar (JC-803613M), 01 Feb 2010
 Nb Sub Suresh Chander (JC-803615X), 01 Feb 2010
 Nb Sub Hans Raj (JC-803616A), 01 Feb 2010
 Nb Sub Ram Phal (JC-803617H), 03 Feb 2010@@
 Nb Sub Pulak Kanti Mondal (JC-803618L), 08 Feb 2010@@
 Nb Sub Sunil Kumar Tomar (JC-803619N), 01 Feb 2010
 @@ (Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Radhey Kant Dubey (JC-803621L), 01 Mar 2010
 Nb Sub Mani Sekar M (JC-803623W), 10 Apr 2010##
 Nb Sub/Clk Bhim Singh Rawat (JC-803739M), 02 Mar 2010##
 Nb Sub/Clk Laxmidhar Tarai (JC-803740F), 01 Mar 2010
 ## (Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub Ashok Kumar (JC-803628P), 01 Apr 2010
 Nb Sub Rajpal Singh Kadian (JC-803632X), 06 Apr 2010\$\$
 Nb Sub Ramesh Chander (JC-803633A), 03 Apr 2010\$\$
 Nb Sub Jagat Singh Rawat (JC-803635L), 08 Apr 2010\$\$
 Nb Sub Tilak Raj Sharma (JC-803741K), 01 Apr 2010
 \$\$ (Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

To be Naib Sub

Hav Ranjit Singh (No. 9510852Y now JC-804317N), 06 Jul 2009@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Pradip Kumar (No. 9510864N now JC-804318W),
01 Jul 2009

Hav Yogesh Kumar Attri (No. 9510866Y now JC-804319Y),
01 Jul 2009

Hav Narpat Singh Rathore (No. 9510867F now JC-804320N), 02 Jul 2009#

Hav Rajender Singh (No. 9510868K now JC-804321W),
04 Jul 2009#

\$(Granted seniority in the rank of NbSub wef 01 Jul 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar (No. 9510870F now JC-804323F), 05 Aug
2009\$

Hav Uma Shanker Yadav (No. 9510871K now JC-804324K),
11 Sep 2009\$

Hav Sukanta Kumar Dash (No. 9510872M now JC-804325M), 01 Aug 2009

Hav Ashit Kamlakant Bhattacharjee (No. 9510873P now
JC-804326P), 01 Aug 2009

Hav Devendra Singh Kushwah (No. 9510876H now JC-804227X), 01 Aug 2009

Hav Jokhan Rai (No. 9510884F now JC-804328A),
01 Aug 2009

Hav Digar Singh (No. 9510885K now JC-804329H),
01 Aug 2009

Hav Ashok Kumar (No. 9510886M now JC-804330X),
04 Sep 2009\$

Hav Ajay Kumar Singh (No. 9510887P now JC-804331A),
01 Aug 2009

Hav Prafulla Kumar Mishra (No. 9510888X now JC-804332H), 01 Aug 2009

Hav Sudhakaran Nair N (No. 9510890P now JC-804333L),
01 Aug 2009

Hav Medappa MS (No. 9510892A now JC-804334N),
01 Aug 2009

Hav Thomas PV (No. 9510900N now JC-804335W),
01 Aug 2009

Hav Khageswar Sahu (No. 9510902Y now JC-804336Y),
12 Aug 2009

Hav V Sudhakar Changavalli (No. 9510904K now JC-804337F), 01 Aug 2009

\$(Granted seniority in the rank of NbSub wef 01 Aug 2009
without effect on pay and allowances)

Hav M Sreenivasula Reddy (No. 9510905M now JC-804338K), 01 Sep 2009

Hav Amar Prakash (No. 9510906P now JC-804339M),
01 Sep 2009

Hav Krishna Chandra Pradhan (No. 9510907X now JC-804340F), 03 Sep 2009&

Hav Gajanan Hegde (No. 9510909H now JC-804341K),
01 Sep 2009

Hav Bhup Chand (No. 9510911A now JC-804342M),
01 Sep 2009

Hav Vasudeva Rao Hanumanthu (No. 9510912H now JC-804343P), 01 Sep 2009

Hav Chaudhary Subhash Chandra (No. 9510913L now JC-804344X), 04 Sep 2009\$

Hav Shaik Karimullah (No. 9510914N now JC-804345A),
01 Sep 2009

Hav Chandra Shekher Bhatt (No. 9510918K now JC-804346H), 12 Sep 2009

&(Granted seniority in the rank of NbSub wef 01 Sep 2009
without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Parmar Dalpat Sinh Kabhai Bhai (No. 9509915K
now JC-804350L), 01 Oct 2009

Hav Rabindra Prasad (No. 9510891X now JC-804348N),
05 Nov 2009@

@(Granted seniority in the rank of NbSub wef 26 Sep 2009
without effect on pay and allowances)

Hav Fakir Charan Naik (No. 9510607W now JC-804349W),
08 Nov 2009@@

@@(Granted seniority in the rank of NbSub wef 01 Oct
2009 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Mihir Kumar Dey (No. 9509917P now JC-804351N),
09 Nov 2009#

Hav Ajith Kumar KC (No. 9510919M now JC-804352W),
06 Nov 2009#

Hav Parmod Kumar (No. 9510920F now JC-804353Y),
17 Nov 2009#

Hav Hemant Kumar Parida (No. 9510922M now JC-804354F), 09 Nov 2009#

Hav Shivendra Kumar Singh (No. 9510925A now JC-804355K), 07 Nov 2009#

\$(Granted seniority in the rank of NbSub wef 01 Nov 2009
without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Kumaran CM (No. 9509918X now JC-804356M),
01 Dec 2009

Hav Devi Chand (No. 9510926H now JC-804357P), 01 Dec
2009

Hav Abdul Rasheed Elachola (No. 9510938X now JC-804363H), 01 Jan 2010

Hav Padum Singh (No. 9510943H now JC-804364L), 01 Jan
2010

Hav Devendra Singh Rawat (No. 9510944L now JC-804365N), 01 Jan 2010

Hav Prem Singh (No. 9510945N now JC-804366W), 01 Jan 2010

Hav Neeraj Kumar Sharma (No. 9510946W now JC-804367Y), 01 Jan 2010

Hav Dharendra Singh (No. 9510948F now JC-804368F), 01 Jan 2010

Hav Chandra Pal Singh (No. 9510949K now JC-804369K), 01 Jan 2010

Hav Pritpal Singh (No. 9510952K now JC-804371F), 01 Jan 2010

Hav Gauri Shankar Tiwary (No. 9510841M now JC-804347L), 23 Nov 2009@

@(Granted seniority in the rank of NbSub wef 05 Sep 2009 without effect on pay and allowance)

Hav Anand Ballabh (No. 9510874X now JC-804359A), 21 Jan 2010#

#(Granted seniority in the rank of NbSub wef 26 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rajender Singh (No. 9510928N now JC-804358X), 02 Dec 2009@@

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Satish Kumar (No. 9510930L now JC-804360P), 01 Jan 2010

Hav Durga Prasad Singh (No. 9510931N now JC-804361X), 01 Jan 2010

Hav Shiva Nand (No. 9510933Y now JC-804362A), 01 Jan 2010

Hav Devender Kumar (No. 9510950Y now JC-804370Y), 01 Jan 2010

Hav Virender (No. 9510953M now JC-804372K), 03 Jan 2010\$

\$(Granted seniority in the rank of NbSub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shambhu Singh (No. 9510954P now JC-804373M), 10 Feb 2010\$\$

Hav Radhakrishnan P (No. 9510956A now JC-804374P), 03 Feb 2010\$\$

Hav Narendra Singh (No. 9510960H now JC-804375X), 03 Feb 2010\$\$

Hav Prakash N (No. 9510962N now JC-804376A), 01 Feb 2010

Hav Rakesh Kumar (No. 9510966K now JC-804377H), 01 Feb 2010

Hav Jagdish Prasad Ray (No. 9510980W now JC-804378L), 01 Feb 2010

Hav Mahesh Pal Singh (No. 9510967M now JC-804379N), 01 Feb 2010

Hav Narendra Chhotaray (No. 9510968P now JC-804380H), 02 Feb 2010\$\$

Hav Lukinder Singh (No. 9511000W now JC-804381L), 01 Feb 2010

Hav Narayanan Kutty MK (No. 9511002F now JC-804382N), 02 Feb 2010\$\$

Hav Surinder Kumar (No. 9511006X now JC-804384Y), 01 Feb 2010

Hav Vidya Sagar Rai (No. 9511007A now JC-804385F), 08 Feb 2010\$\$

\$\$ (Granted seniority in the rank of NbSub wef 06 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jitender Singh Rajora (No. 9510106W now JC-804387M), 08 Mar 2010&

& (Granted seniority in the rank of NbSub wef 06 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jasbir Singh (No. 9511008H now JC-804388P), 01 Mar 2010

Hav Raghunath Kurup N (No. 9511016F now JC-804390M), 01 Mar 2010

Hav/Clk Rajinder Singh (No. 9509678L now JC-804391P), 01 Mar 2010

Hav/Clk Mukesh Chandra Mishra (No. 9509919A now JC-804392X), 01 Mar 2010

PREM PARKASH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 624, dated 11th Oct 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Nb Sub

Hav/Clk (SD) J Mandal (No. 6925442L now JC-728884A), 01 Apr 2010

Hav/Clk (SD) PK Das (No. 6925445Y now JC-728885H), 01 Apr 2010

Hav/Clk (IM) RL Yadav (No. 6925536H now JC-728886L), 01 Apr 2010

Hav/Clk (IM) Anil Kumar (No. 6925586N now JC-728887N), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) RK Singh (No. 6925588Y now JC-728888W), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) Birendra Singh (No. 6925589F now JC-728889Y), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) Gobind Singh (No. 6920763Y now JC-728890N), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) SS Yadav (No. 6921612M now JC-728891W), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) KP Yadav (No. 6921646A now JC-728892Y), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) JC Joshi (No. 6921665L now JC-728893F), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) AB Singh (No. 6921674M now JC-728894K), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) SC Ram (No. 6922427L now JC-728895M), 21 Oct 2009*

(Granted seniority in the rank of NbSub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) AB Mishra (No. 6925295N now JC-728896P), 01 Apr 2010

Hav (SKT GS&C) Anil Kumar (No. 6925427W now JC-728897X), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) BD Moharana (No. 6925450K now JC-728898A), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) DK Gayen (No. 6925467X now JC-728899H), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) Nagendra Sah (No. 6925485A now JC-728900M), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) SR Singh (No. 6925514K now JC-728901P), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) Vinod Kumar (No. 6925515M now JC-728902X), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) Chitranjan Singh (No. 6925557Y now JC-728903A), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) U Mishra (No. 6925635L now JC-728904H), 01 May 2010

Hav (SKT AMN) KA Trivedi (No. 6925636N now JC-728905L), 01 May 2010

Hav (SKT AMN) SN Dixit (No. 6925728A now JC-728906N), 01 May 2010

Hav (SKT GS&C) SM Naidu (No. 6926254W now JC-728907W), 01 May 2010

Hav (SKT MT) D Selva Raj (No. 6926258M now JC-728908Y), 01 May 2010

Hav (SKT MT) Hoshiyar Singh (No. 6926288K now JC-728909F), 01 May 2010

Hav (SKT MT) GS Gour (No. 6926289M now JC-728910W), 01 May 2010

Hav (SKT MT) RP Yadave (No. 6926298N now JC-728911Y), 01 May 2010

Hav (SHGD) BK Yadav (No. 6942061A now JC-728912F), 01 May 2010

Hav (SHGD) AP Singh (No. 69261761A now JC-728913K), 01 May 2010

Hav (SHGD) Jairam Pandey (No. 6922707Y now JC-728914M), 01 May 2010

Hav (SHGD) RK Singh (No. 6922853Y now JC-728915P), 01 May 2010

Hav (SHGD) Satya Pal (No. 6922867Y now JC-728916X), 01 May 2010

Hav (SHGD) RP Kushwaha (No. 6923054P now JC-728917A), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) Elangovan B (No. 6924976K now JC-728918H), 01 Jan 2010

Hav/Clk (IM) Patil Niwas Rao (No. 6925053L now JC-728919L), 01 Jan 2010

Hav/Clk (SD) Makhan Singh (No. 6925569N now JC-728920A), 01 Apr 2010

Hav/Clk (IM) Patil Nama Dev (No. 6920874W now JC-728921H), 01 May 2010

Hav/Clk (IM) RK Thakar (No. 6921336P now JC-728922L), 01 May 2010

Hav/Clk (SD) Triloki Prasad (No. 6924110P now JC-728923N), 01 Jun 2010

Hav/Clk (SD) Ajit Singh (No. 6925530F now JC-728924W), 01 Jun 2010

Hav/Clk (IM) Surender Kumar (No. 6921814N now JC-728925Y), 01 Jun 2010

Hav/Clk (IM) Avadesh Kumar (No. 6921945Y now JC-728926F), 01 Jun 2010

Hav/Clk (IM) IL Choudhary (No. 6925590W now JC-728927K), 01 Jun 2010

Hav/Clk (IM) Vikram Singh (No. 6925595P now JC-728928M), 01 Jun 2010

Hav/Clk (IM) SS Yadav (No. 6925604L now JC-728929P), 01 Jun 2010

Hav/Clk (SD) Gaikwad DH (No. 6925605N now JC-728930K), 01 Jun 2010

Hav/Clk (IM) Durga Dass (No. 6925606W now JC-728931M), 01 Jun 2010

Hav (SKT AMN) Mandroop Ram (No. 6926299W now JC-728932P), 01 Jun 2010

Hav (SKT GS&C) Ganesh Ram (No. 6926306F now JC-728933X), 01 Jun 2010

Hav (SKT MT) Manni Ram (No. 6926310K now JC-728934A), 01 Jun 2010

Hav (SKT AMN) PK Singh (No. 6926311M now JC-728935H), 01 Jun 2010

Hav (SKT MT) PK Choudhary (No. 6926314A now JC-728936L), 01 Jun 2010

Hav (SKT MT) SK Khyalia (No. 6926304W now JC-728937N), 01 Jun 2010

Hav (SKT MT) SP Choudhary (No. 6926316L now JC-728938W), 01 Jun 2010

Hav (SKT MT) NR Saini (No. 6926320N now JC-728939Y), 01 Jun 2010

Hav (SKT MT) R Murugan (No. 6926336Y now JC-728940N), 01 Jun 2010

Hav (SKT GS&C) Kanwar Singh (No. 6926348N now JC-728941W), 01 Jun 2010

Hav (SKT GS&C) Raj Kumar (No. 6926350L now JC-728942Y), 01 Jun 2010

Hav (SKT GS&C) Surjit Singh (No. 6926353Y now JC-728943F), 01 Jun 2010

Hav (SKT GS&C) SK Saini (No. 6926354F now JC-728944K), 01 Jun 2010

Hav (SKT GS&C) AS Negi (No. 6926356M now JC-728945M), 01 Jun 2010

Hav (SKT MT) SC Verma (No. 6926373M now JC-728946P), 01 Jun 2010

Hav (SHT) VS Kharinta (No. 6921700H now JC-728947X), 01 Jun 2010

Hav (SHT) Babu Singh (No. 6921869X now JC-728948A), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) Prem Singh (No. 6922992H now JC-728949H), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) Vijay Pal (No. 6922224F now JC-728950X), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) MD Rafik Khan (No. 6922847L now JC-728951A), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) Shiv Kumar (No. 6922495Y now JC-728952H), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) KL Bhagwan (No. 6923085P now JC-728953L), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) K Khakha (No. 6923091H now JC-728954N), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) AR Banikya (No. 6923128Y now JC-728955W), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) AK Singh (No. 6923165N now JC-728956Y), 01 Jun 2010

Hav (SHGD) RBS Nath (No. 6923168A now JC-728957F), 01 Jun 2010

Hav/Clk (IM) Arbind Singh (No. 6925593K now JC-728959M), 01 Jun 2010

Hav/Clk (SD) Ram Naresh (No. 6925607Y now JC-728960F), 01 Jul 2010

Hav/Clk (IM) SS Yadav (No. 6925608F now JC-728961K), 01 Jul 2010

Hav/Clk (SD) RC Gupt (No. 6925609K now JC-728962M), 01 Jul 2010

Hav/Clk (IM) Arjun Singh (No. 6925610Y now JC-728963P), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) Rajnarayan (No. 6926375X now JC-728964X), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) Ram Kripal (No. 6926378L now JC-728965A), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) Ram Mohan (No. 6926379N now JC-728966H), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) Hari Ram (No. 6926406M now JC-728967L), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) Ajit Singh (No. 6926410P now JC-728968N), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) JS Nehra (No. 6926436K now JC-728969W), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) BJK Dhirajlal (No. 6926458H now JC-728970L), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) GM Pandey (No. 6926521M now JC-728971N), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) AR Lakhman (No. 6926462L now JC-728972W), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) KS Punia (No. 6926525H now JC-728973Y), 01 Jul 2010

Hav (SKT MT) Naginder Singh (No. 6926528W now JC-728974F), 01 Jul 2010

Hav (SHT) GS Tripathi (No. 6921878Y now JC-728975K), 01 Jul 2010

Hav (SHT) Puskar Singh (No. 6921957N now JC-728976M), 01 Jul 2010

Hav (SHGD) Sashikant Rai (No. 6923036M now JC-728977P), 01 Apr 2010

Hav (SHGD) GN Shri Nath (No. 6923199A now JC-728978X), 01 Jul 2010

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING BRANCH

The President is pleased to make the following
Appointments/Promotions :—

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Dhirendra Singh (No. 14603148X now JC-764822L),
01 Apr 2010

Sanwar Mal (No. 14607615F now JC-764956K), 05 Apr 2010/01 Apr 2010*

Biju George (No. 14608169X now JC-764957M), 01 Apr 2010

S Siva Subramanian (No. 14608063L now JC-764958P), 01 Apr 2010

Mugada Suryanaryana (No. 14599921Y now JC-764813K), 07 Apr 2010/01 Mar 2010*

Radha Krishna Pandey (No. 14601329K now JC-764817A), 06 Apr 2010/01 Mar 2010*

Hav To be Nb Sub Master Tech Net Working

Kapil Kumar Agarwal (No. 14613016X now JC-764858K), 15 Mar 2010/01 Mar 2010*

Krishna Kumar (No. 14616158A now JC-764859M), 01 Mar 2010

Sirudaya Samy (No. 14616554W now JC-764860F), 04 Mar 2010/01 Mar 2010*

Padam Singh (No. 14616838A now JC-764862M), 01 Mar 2010

Tarak Nath Sarkar (No. 14617361H now JC-764864X), 01 Apr 2010

Balwant Singh (No. 14618060L now JC-764865A), 01 Apr 2010

Swapan Kumar Paria (No. 14618090H now JC-764866H), 01 Apr 2010

Manik Chandra (No. 14611382H now JC-764867L), 01 Apr 2010

Aditya Shukla (No. 14615374F now JC-764863P), 10 Apr 2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub SKT

Meghraj Singh (No. 14600995H now JC-764875K), 27 Mar 2010/07 Mar 2010*

Pujari Dipak Shamrao (No. 14603221L now JC-764876M), 22 Mar 2010/07 Mar 2010*

Niranjan Pradhan (No. 14600354W now JC-764877P), 20 Mar 2010/07 Mar 2010*

Mithila Prasad (No. 14589148K now JC-764878X), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Avn (AF)

Satish Chandra Dubey (No. 14620864Y now JC-764882A), 01 Apr 2010

Santosh Kumar Dwivedi (No. 14621264H now JC-764885N), 01 Apr 2010

Gavara Kanaka Rao (No. 14626376M now JC-764889K), 01 Apr 2010

Louis D Souza (No. 14625791F now JC-764890Y), 01 Apr 2010

Selvaraj SS (No. 14626028L now JC-764915A), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Avn (AE)

Paipa Ram Saini (No. 14626602Y now JC-764894P), 01 Apr 2010

Murugavel C (No. 14629001Y now JC-764896A), 03 Apr 2010/01 Apr 2010*

Manjan Kumar (No. 14633506M now JC-764897H), 01 Apr 2010

Arjun Singh Negi (No. 14634645H now JC-764898L), 01 Apr 2010

Sacchidanand Dwivedi (No. 14634699K now JC-764899N), 01 Apr 2010

Satish Kumar (No. 14634764Y now JC-764900X), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Avncs

Menda Dharma Raju (No. 14618522M now JC-764910F), 01 Apr 2010

Y Shivashankar (No. 14618182F now JC-764908K), 01 Apr 2010

K Saravana Kumar (No. 14618167A now JC-764909M), 01 Apr 2010

Sarvesh Chandra (No. 14618708W now JC-764911K), 01 Apr 2010

Dilip Kumar Srivastava (No. 14622586P now JC-764912M), 01 Apr 2010

Rakesh Mishra (No. 14616033H now JC-764913P), 01 Apr 2010

Mithilesh Kumar (No. 14627005W now JC-764916H), 01 Apr 2010

Pragyanand Pragyesh (No. 14637128W now JC-764918N), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Avn (Ele)

Mrinal Kundu (No. 14609402M now JC-764905W), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Balwan Singh (No. 14566781X now JC-764919W), 01 Apr 2010

Md Motiurrahman (No. 14567646W now JC-764921N), 05 Apr 2010/01 Apr 2010*

Promod Kumar (No. 14567741H now JC-764922W), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Auto Tech Engr Eqpt

G Perumal (No. 14581952W now JC-764926M), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Sunil Kumar (No. 14622783X now JC-764933H), 30 Mar 2010/01 Mar 2010*

Raj Kumar Ram (No. 14597814Y now JC-764934L), 01 Apr 2010

Dau Dayal Sharma (No. 14612710X now JC-764936W), 01 Apr 2010

Kapil Dev Singh (No. 14615918L now JC-764937Y), 01 Apr 2010

Vinod Kumar (No. 14617068L now JC-764938F), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Comn

M Abdul Salim (No. 14618570M now JC-764941F), 13 Apr 2010/01 Apr 2010*

Unhale Chandrakanta Ganpat (No. 14621213P now JC-764945X), 01 Apr 2010

Tribhuvan Bhausahab Baichand (No. 14624581P now JC-764939K), 01 Mar 2010

Hav to be Nb Sub Artzn Metallurgy

Suneer S (No. 14646524N now JC-764953W), 01 Apr 2010/13 Feb 2010*

Hav to be Nb Sub Machinist

Shishu Pal Singh (No. 14581986K now JC-764967W), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Armt AFVAD

Lalta Prasad Singh (No. 14570098P now JC-764873Y), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech A Veh

Basudev Jana (No. 14620677A now JC-764793F), 01 Mar 2010

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Tijoman Joseph (No. 14619631L now JC-764403N), 05 Nov 2009/18 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Abhay Narayan Pandey (No. 14622533W now JC-764777K), 09 Mar 2010/01 Mar 2010*

S Jaya Kumar (No. 14623123M now JC-764778M), 11 Mar 2010/01 Mar 2010*

Narsale Rangji Shivaji (No. 14624758X now JC-764779P), 13 Mar 2010/01 Mar 2010*

Dharam Pal (No. 14593788L now JC-764802X), 17 Mar 2010/01 Mar 2010*

Pradeep Kumar Mahto (No. 14595447Y now JC-764803A), 17 Mar 2010/01 Mar 2010*

Subhash Chander (No. 14595349Y now JC-764804H), 10 Mar 2010/01 Mar 2010*

Sant Ram (No. 14595682X now JC-764805L), 01 Mar 2010

Hav to be Nb Sub Auto Tech A Veh

Ravendra Singh (No. 14611221A now JC-764780K), 12 Mar 2010/01 Mar 2010*

Nand Kishore Pandey (No. 14615700Y now JC-764781M), 11 Mar 2010/01 Mar 2010*

Rajinder Singh (No. 14617919M now JC-764782P), 15 Mar 2010/01 Mar 2010*

Pinaki Bhaduri (No. 14618092N now JC-764783X), 16 Mar 2010/01 Mar 2010*

VT Nagarajan (No. 14618365L now JC-764784A), 01 Mar 2010

Satbinder Singh (No. 14618953Y now JC-764785H), 11 Mar 2010/01 Mar 2010*

Ratna Eswara Rao (No. 14618962A now JC-764786L), 10 Mar 2010/01 Mar 2010*

Arun Kumar Kole (No. 14619025P now JC-764787N), 17 Mar 2010/01 Mar 2010*

Vijay Pal Yadav (No. 14619060X now JC-764788W), 13 Mar 2010/01 Mar 2010*

Bhagwati Prasad Upreti (No. 14619367H now JC-764789Y), 17 Mar 2010/01 Mar 2010*

Bhupinder Singh (No. 14620074K now JC-764790N), 15 Mar 2010/01 Mar 2010*

Selva Kumar C (No. 14620465P now JC-764791W), 10 Mar 2010/01 Mar 2010*

Munakka Ram (No. 14620541W now JC-764792Y), 01 Mar 2010

Ravinder Singh (No. 14620779W now JC-764794K), 18 Mar 2010/01 Mar 2010*

Rajesh Kumar (No. 14620784F now JC-764795M), 10 Mar 2010/01 Mar 2010*

Jaya Chandran P (No. 14621061Y now JC-764796P), 12 Mar 2010/01 Mar 2010*

Devendra Singh (No. 14621257M now JC-764798A), 09 Mar 2010/01 Mar 2010*

Anil Kumar Prajapati (No. 14621260M now JC-764799H), 17 Mar 2010/01 Mar 2010*

Ayasa Kanta Sahu (No. 14621458L now JC-764800M), 15 Mar 2010/01 Mar 2010*

Vipan Katoch (No. 14621869K now JC-764801P), 01 Mar 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Radar

Sukanta Ghosh (No. 14627026M now JC-764745F), 01 Apr 2010

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

K Siddharudha Siddamma (No. 14622686A now JC-764083K), 17 May 2010/01 Jun 2009*

Daya Nand (No. 14607154H now JC-764954Y), 01 Apr 2010

Om Prakash (No. 14607198A now JC-764955F), 02 Apr 2010/01 Apr 2010*

Satvir Singh (No. 14608559A now JC-764961P), 01 May 2010

Govind Prasad (No. 14608855L now JC-764962X), 01 May 2010

Indrajit Prasad (No. 14609226A now JC-764964H), 01 May 2010

Udaya Kumar S (No. 14609258H now JC-764965L), 01 May 2010

M Saravanan (No. 14623083W now JC-764969F), 06 May 2010/21 Mar 2010*

A Ravi Kumar (No. 14606284Y now JC-764970W), 24 Apr 2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Opto Elect

V Arumugam (No. 14621577F now JC-764971Y), 19 Apr 2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Comn

Neeraj Kumar Singh (No. 14618652P now JC-764846P), 11 Mar 2010/01 Mar 2010*

Murali M (No. 14618568P now JC-764940Y), 08 Apr 2010/01 Apr 2010*

Ardhi Murali Kumar (No. 14618867H now JC-764942K), 03 Apr 2010/01 Apr 2010*

Manoj Kumar Singh (No. 14620433M now JC-764944P), 05 Apr 2010/01 Apr 2010*

Avinash (No. 14623175H now JC-764946A), 01 May 2010

Chandra Shekhar Azad (No. 14623674X now JC-764948L), 01 May 2010

Surendra Kumar (No. 14623678N now JC-764949N), 01 May 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech SA

Sharma Jitender Kumar (No. 14576917K now JC-764871N), 01 May 2010

Ashok Kumar Parida (No. 14577449F now JC-764872W), 01 May 2010

Jagat Singh (No. 14574708N now JC-764874F), 03 May 2010/01 May 2010*

Satish Chandra Mehta (No. 14577819W now JC-764875P), 01 May 2010

Ram Pravesh Singh (No. 14577705L now JC-764977A), 01 May 2010

Hav to be Nb Sub SKT

Panchi Lal (No. 14592244K now JC-764879A), 01 May 2010

Malkiat Singh (No. 14613683L now JC-764880P), 01 May 2010

Mahendra Mahanta (No. 14600356F now JC-765020N), 01 May 2010

Mool Chand (No. 14605118Y now JC-765022Y), 10 May 2010/01 May 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech AVN (AF)

P Eswara Moorthy (No. 2889517L now JC-764883H), 19 Apr 2010/01 Apr 2010*

Antony Christy Jose K (No. 14622133K now JC-764886W), 03 May 2010/01 Apr 2010*

M Srinivasan (No. 14626375K now JC-764888F), 05 Apr 2010/01 Apr 2010*

Sasi Kumar M (No. 14626946X now JC-764891F), 01 Apr 2010

Susanta Kumar Khandai (No. 14619515H now JC-764914X), 01 Apr 2010

P Justes Raj (No. 14636412A now JC-764917L), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Avn (AE)

K Swami Ranga Reddy (No. 14627275L now JC-764895X), 15 Apr 2010/01 Apr 2010*

Mahendra Singh (No. 14634789L now JC-764901A), 08 Apr 2010/01 Apr 2010*

Dharam Raj (No. 14636150P now JC-764903L), 01 May 2010/01 Apr 2010*

Himadri Bhushan Tripathi (No. 14635454A now JC-764902H), 05 Apr 2010/01 Apr 2010*

Ellappan M (No. 14635286M now JC-764972F), 21 Apr 2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Udaibhan Singh Pal (No. 14567143L now JC-764920L), 15 Apr 2010/01 Apr 2010*

Bijay Bahadur Singh (No. 14567725L now JC-764923Y), 01 May 2010

Surendra Kumar Pradhan (No. 14568138M now JC-764924F), 01 May 2010

T Chitti Babu (No. 14567963X now JC-764925K), 01 May 2010

Shailendra Kumar (No. 14567600N now JC-764974M), 29 Apr 2010/25 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Sunil Deth KP (No. 14587123Y now JC-764927P), 01 May 2010

S Pralhad Namdev (No. 14587132A now JC-764928X), 01 May 2010

Dnyaneshwar Gopal Kumbhar (No. 14587130P now JC-764929A), 01 May 2010

Rajan Thivalappil (No. 14589751M now JC-764930P), 01 May 2010

Sree Kumar AT (No. 14589757N now JC-764931X), 01 May 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Gouri Shankar (No. 14611494H now JC-764935N), 01 Apr 2010

Sukh Ram (No. 14617078P now JC-764990K), 01 May 2010

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Ravinder Singh (No. 14584976L now JC-764951L), 01 May 2010

Muthu Gopal (No. 14584327A now JC-764952N), 01 May 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Networking

Amresh Kumar Pandey (No. 14617506H now JC-764973K), 20 Apr 2010/01 Mar 2010*

*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Tribhuwan Nath (No. 14584217L now JC-764568M), 10 Dec 2009/01 Dec 2009*

Awadh Kishore Singh (No. 14596051F now JC-764806N), 11 Mar 2010/01 Mar 2010*

Gopinathan PK (No. 14599137L now JC-764809F), 06 Mar 2010/01 Mar 2010*

Abdresh Kumar Roy (No. 14600347A now JC-764811Y), 19 Mar 2010/01 Mar 2010*

Unni Krishnan T (No. 14599451Y now JC-764812F), 15 Mar 2010/01 Mar 2010*

Tarkeshwar Tiwari (No. 14600555P now JC-764814M), 05 Mar 2010/01 Mar 2010*

Bishnu Ram Wary (No. 14600911K now JC-764815P), 10 Mar 2010/01 Mar 2010*

Sanjeev Tiwari (No. 14601218M now JC-764816X), 08 Mar 2010/01 Mar 2010*

Shindhe Ashok Shahaji Rao (No. 14602029P now JC-764818H), 01 Apr 2010

Anzaraalajibhai Mohanbhai (No. 14601980M now JC-764819L), 01 Apr 2010

Padmanabhan KM (No. 14602380W now JC-764820A), 01 Apr 2010

Godhan Singh (No. 14602612K now JC-764821H), 01 Apr 2010

Dhanore Gajanan Chhotelal (No. 14605302K now JC-764823N), 01 Apr 2010

Kushal Singh Rawat (No. 14605324H now JC-764824W), 01 Apr 2010

Rajvir Singh (No. 14605252K now JC-764825Y), 01 Apr 2010

Dhananjayan D (No. 14606415Y now JC-764826F), 01 Apr 2010

Prabhoo Narayad Prasad (No. 14606804Y now JC-764827K), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub SKT

Suresh Chand (No. 14613072W now JC-764690H), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

Dharmendra Singh (No. 14623306H now JC-764705A), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Opto Elect

Pramod Kumar Singh (No. 14618004M now JC-764713Y), 01 Mar 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

Sanjai Kumar (No. 14625474A now JC-764731F), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Comm

Shirke Santosh Mohan (No. 14618478N now JC-764828M), 11 Mar 2010/01 Mar 2010*

Vijay Kumar Yadav (No. 14618660N now JC-764829P), 15 Mar 2010/01 Mar 2010*

Hans Raj (No. 14618669H now JC-764830K), 01 Apr 2010/01 Mar 2010*

Ramesh Ardhi (No. 14618825F now JC-764831M), 01 Mar 2010

Babula Swain (No. 14621446W now JC-764832P), 01 Mar 2010

Gurudev Dash (No. 14621457H now JC-764833X), 01 Mar 2010

Bala Murugan N (No. 14622872W now JC-764835H), 16 Mar 2010/01 Mar 2010*

Pramod Kumar Yadav (No. 14623437N now JC-764836L), 13 Mar 2010/01 Mar 2010*

Sachchida Nand Pathak (No. 14623791H now JC-764837N),
01 Mar 2010

Ramesh Kumar (No. 14625776M now JC-764838W),
05 Mar 2010/01 Mar 2010*

Md Mozafor Ali (No. 14618043L now JC-764839Y),
01 Mar 2010

K Pandi (No. 14618071X now JC-764840N), 12 Mar 2010/
01 Mar 2010*

Ashok Kumar (No. 14618311K now JC-764841W), 15 Mar
2010/01 Mar 2010*

Hipparkar B Das (No. 14618484F now JC-764842Y),
20 Mar 2010/01 Mar 2010*

Gopi Nath Jena (No. 14618516Y now JC-764843F), 15 Mar
2010/01 Mar 2010*

Bijoy Kumar (No. 14618553M now JC-764845M), 14 Mar
2010/01 Mar 2010*

Yelmar Sanjay Namdeo (No. 14618854W now JC-764847X),
15 Mar 2010/01 Mar 2010*

Gurdeep Singh (No. 14618887P now JC-764848A), 06 Mar
2010/01 Mar 2010*

Vinod Jacob (No. 14618875M now JC-764849H), 16 Apr
2010/01 Mar 2010*

Jagpal Singh (No. 14618936Y now JC-764850X), 13 Mar
2010/01 Mar 2010*

Kapal Kumar (No. 14618947L now JC-764851A), 09 Mar
2010/01 Mar 2010*

Subhash Chandra Sharma (No. 14618968F now JC-
764852H), 20 Mar 2010/01 Mar 2010*

Jai Singh (No. 14618976A now JC-764853L), 13 Mar 2010/
01 Mar 2010*

Anil Kumar (No. 14618998Y now JC-764854N), 19 Mar
2010/01 Mar 2010*

Ravinder Singh (No. 14617538L now JC-764855W),
01 Apr 2010

G Frangis (No. 14617594K now JC-764856Y), 01 Apr 2010

Tera Srinivasula Reddy (No. 14618203A now JC-764857F),
01 Apr 2010

Dharamvir Singh (No. 14614708Y now JC-764861K),
05 Mar 2010/01 Mar 2010*

*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Master Tech Comn

Hari Singh Lamba (No. 14617746A now JC-764051F),
24 May 2010/01 Jun 2009*

Bagul Chaitram Nanda (No. 14620413Y now JC-764943M),
03 Apr 2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Vinod Kumar Mishra (No. 14622751P now JC-764087A),
25 May 2010/01 Jul 2009*

Gedela Kamaraju (No. 14607971F now JC-764959X),
03 May 2010/01 May 2010*

Raj Bahadur Thapa (No. 14608210H now JC-764960M),
01 May 2010

Suren Boruah (No. 14608885H now JC-764963A), 14 May
2010/01 May 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

Pitabar Tripathi (No. 14621120A now JC-764111L), 28 May
2010/07 Jun 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech Opto Elect

Sohan Pal Singh Rana (No. 14618336W now JC-764282X), -
01 Nov 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Radar

Sanjay Kumar (No. 14626970N now JC-764740H), 04 Apr
2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Networking

Manoj Kumar Patil (No. 14612637K now JC-764868N),
01 May 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech AFN (AF)

Kishore N Kumar (No. 14627431K now JC-764892K),
13 May 2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Lal Chand Yadav (No. 14584291M now JC-764950H),
03 May 2010/01 Apr 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech SA

Walunj Ashok Namdeo (No. 14577852N now JC-764976X),
07 May 2010/01 May 2010*

Hav to be Nb Sub Master Tech Avn (I P)

Patil Arun Rangrao (No. 14573431N now JC-765024K),
15 May 2010/01 May 2010*

Hav to be Nb Sub Auto Elect B Veh

Hans Raj (No. 14568268P now JC-765026P), 24 May 2010/
20 May 2010*

Kailash Chand Sehara (No. 14568370K now JC-765027X),
24 May 2010/20 May 2010*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Bharose Awadhuj Domaji (No. 14586356N now JC-
765021W), 22 May 2010/01 May 2010*

*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Master Tech Radar

Padam Singh (No. 14628573N now JC-764732K), 23 Feb 2010/01 Dec 2009*

Mukesh Chandra (No. 14625004P now JC-764737H), 01 Apr 2010

S Xavier Selvaraj (No. 14626726N now JC-764738L), 01 Apr 2010

Bal Govind (No. 14626964A now JC-764739N), 01 Apr 2010

Velayuthan M (No. 14626848X now JC-764741L), 01 Apr 2010

S Vijaya Kumar (No. 14626859K now JC-764742N), 01 Apr 2010

Jaya Chandran S (No. 14626996H now JC-764743W), 01 Apr 2010

Santosh Kumar Thakur (No. 14626919N now JC-764744Y), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Networking

N Kameshwar Rao (No. 14618260F now JC-764746K), 01 Mar 2010

Khalilur Rahman Mazumder (No. 14575363K now JC-764747M), 01 Mar 2010

Sawant Chandra Shekhar Mukund (No. 14616926W now JC-764748P), 01 Mar 2010

Satish Kumar (No. 14617096X now JC-764749X), 01 Mar 2010

Nandan Singh Rawat (No. 14617509W now JC-764750M), 19 Mar 2010/01 Mar 2010*

Ram Kishore Gupta (No. 14617374A now JC-764751P), 02 Mar 2010/01 Mar 2010*

Chirinelli Santa Rao (No. 14617279N now JC-764752X), 15 Mar 2010/01 Mar 2010*

Pavan Kumar (No. 14617862H now JC-764753A), 01 Mar 2010

Kundan Kumar (No. 14618200M now JC-764754H), 01 Mar 2010

Mahabir Singh (No. 14607117P now JC-764755L), 01 Mar 2010

R Sreenivasan (No. 14608849X now JC-764756N), 02 Mar 2010/01 Mar 2010*

Sachitra Kumar Panda (No. 14612005Y now JC-764757W), 05 Mar 2010/01 Mar 2010*

Dayanand Sheregar (No. 14615675L now JC-764758Y), 01 Mar 2010

Prem Singh (No. 14615990F now JC-764759F), 01 Mar 2010

Suresh Singh (No. 14582533L now JC-764760W), 01 Mar 2010

Satheesan KP (No. 14606564M now JC-764761Y), 01 Apr 2010

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Ram Avtar Singh (No. 14588167H now JC-764762F), 01 Mar 2010

Pitambar Lal (No. 14588172N now JC-764763K), 01 Mar 2010

Chavhan Namdeohona (No. 14585186H now JC-764764M), 01 Apr 2010

Hari Shankar (No. 14588083P now JC-764765P), 01 Apr 2010

Ramesan P (No. 14584495Y now JC-764766X), 01 Apr 2010

Sunder Lal (No. 14601066K now JC-764767A), 01 Apr 2010

Durgpal Singh (No. 14578962P now JC-764768H), 01 Apr 2010

Ram Awtar Singh (No. 14584445N now JC-764769L), 01 Apr 2010

Siya Ram Kushwaha (No. 14588186N now JC-764770A), 01 Apr 2010

Raj Kumar Majumder (No. 14587808X now JC-764771H), 01 Apr 2010

Ashutosh Sarkar (No. 14587810P now JC-764772L), 01 Apr 2010

Samir Kumar Dutta (No. 14587803Y now JC-764773N), 01 Apr 2010

Dinesh Chandra Sinha (No. 14588616M now JC-764774W), 01 Apr 2010

Mahashin Dafadar (No. 14587801N now JC-764775Y), 01 Apr 2010

*Gtd ante dated seniority

N K KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 625, dated 11th October 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMOURED CORPS

To be Subs Ris

Nb Ris Har Pal (JC-241030W), 01 Apr 2010

Nb Ris Amrik Singh (JC-241137L), 01 Apr 2010

- Nb Ris Surender Singh (JC-241256F), 21 Feb 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Nagendra Tiwari (JC-241470K), 30 Mar 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 08 Dec 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Guman Singh (JC-241583M), 01 Jan 2010
- Nb Ris Gopal Singh (JC-241586A), 07 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Satpal Singh (JC-241587H), 04 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Dec 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Jasbir Singh (JC-241754N), 14 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Dalbir Singh (JC-241764X), 01 Feb 2010
- Nb Ris Lekha Ram (JC-241874M), 01 Jan 2010
- Nb Ris Ashok Singh (JC-241881H), 12 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 29 Dec 2009 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Manjit Singh (JC-241901L), 01 Jan 2010
- Nb Ris Gurpreet Singh (JC-241951W), 01 Jan 2010
- Nb Ris Gynendra Dutt Singh (JC-241965W), 01 Jan 2010
- Nb Ris Banwari Lal (JC-241970F), 04 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Clk Bhoop Singh Chauhan (JC-241977L), 18 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Clk Rampratap Singh (JC-241978N), 12 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Clk Balakrishnan K (JC-241979W), 01 Feb 2010
- Nb Ris Manvendra Partap Singh (JC-241987P), 03 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Sukhvinder Singh (JC-241999K), 14 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Saju MK (JC-242029N), 01 Feb 2010
- Nb Ris Hamam Chand Sharma (JC-242100W), 01 Apr 2010
- Nb Ris Lakhbir Singh (JC-242107A), 10 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Sanjay Kumar (JC-242178F), 01 May 2010
- Nb Ris Ranjit Singh (JC-242205A), 07 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Ram Prasad Verma (JC-242232K), 01 Jan 2010
- Nb Ris Rakesh Kumar (JC-242235X), 01 Jan 2010
- Nb Ris Kaja VVSS Seshagiri Rao (JC-242246K), 03 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Babu K (JC-242248P), 20 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Satheesh Kumar KS (JC-242251P), 20 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Amrik Singh (JC-242280K), 05 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Kishori Lal (JC-242282P), 01 Apr 2010
- Nb Ris Bandhan Sahu (JC-242321H), 03 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Vijender Kumar (JC-242327K), 01 Apr 2010
- Nb Ris A Basheer Ahmed (JC-242330K), 01 Apr 2010
- Nb Ris Madan Lal (JC-242331M), 13 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Sumer Singh Nirwan (JC-242351A), 01 Apr 2010
- Nb Ris Jarnail Singh (JC-242358K), 10 Apr 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Dinesh Pal Singh (JC-242388F), 03 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Prabhakar Singh (JC-242398L), 09 Jan 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Ris Ram Krishan (JC-242400X), 01 Apr 2010

Nb Ris Gurmail Singh (JC-242406Y), 01 Apr 2010

Nb Ris Govind Singh Bhati (JC-242415A), 01 Apr 2010

Nb Ris Paryag Singh Rathore (JC-242417L), 01 Apr 2010

Nb Ris Rajinderpal Singh (JC-242443M), 01 Jan 2010

Nb Ris Narendra Kumar Pradhan (JC-242444P), 05 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sukhwant Singh (JC-242445X), 06 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bhoma Ram (JC-242450H), 07 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mithalesh Kumar (JC-242452N), 01 Jan 2010

Nb Ris Gurmal Singh (JC-242460M), 01 Mar 2010

Nb Ris Durg Singh Sisodiya (JC-242492P), 01 May 2010

Nb Ris Rajender Singh (JC-242510M), 01 May 2010

Nb Ris Natthu Singh (JC-242540K), 01 Apr 2010

Nb Ris Tarsem Singh (JC-242548W), 01 Jan 2010

Nb Ris Jaswant Singh (JC-242552Y), 01 Jan 2010

Nb Ris Surinder Mishra (JC-242556P), 01 Jan 2010

Nb Ris Dhir Singh (JC-242557X), 01 Jan 2010

Nb Ris Kaptan Khan (JC-242558A), 01 Apr 2010

Nb Ris Karan Singh (JC-242563L), 01 Jan 2010

Nb Ris Jagmuni Singh (JC-242568K), 28 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Pavithran K (JC-242590P), 01 Jan 2010

Nb Ris Jabar Singh Rathore (JC-242592A), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Baljit Singh (JC-242598F), 26 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sukhvinder Singh (JC-242599K), 01 Jan 2010

Nb Ris Salam Singh (JC-242638X), 07 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Om Prakash (JC-242664Y), 01 May 2010

Nb Ris Sohan Lal Yadav (JC-242667M), 01 Jan 2010

Nb Ris Jagbir Singh (JC-242671P), 12 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Niranjana Singh (JC-242672X), 12 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris M D Gousuddin (JC-242684M), 01 Jan 2010

Nb Ris Kuldip Singh (JC-242687A), 20 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kulwinder Singh (JC-242688H), 01 Apr 2010

Nb Ris Sirajuden Khan (JC-242690A), 05 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sushanta Kumar Biswas (JC-242701F), 25 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kesar Singh (JC-242703M), 01 Jan 2010

Nb Ris Arbind Kumar Singh (JC-242708L), 01 Jan 2010

Nb Ris Uday Bhan (JC-242709N), 01 Jan 2010

Nb Ris K Lakshmanan (JC-242734M), 25 Nov 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sadhu Ram (JC-242739L), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Kavar (JC-242741H), 05 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sakthi Dharan Nair N (JC-242743N), 01 Apr 2010

Nb Ris Anil Kumar Singh (JC-242747K), 01 Apr 2010

Nb Ris Subhash Chander (JC-242755H), 01 Apr 2010

Nb Ris Sher Singh (JC-242762Y), 02 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Madan Lal (JC-242776Y), 13 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gurbax Singh (JC-242785A), 01 Apr 2010

Nb Ris Hari Singh (JC-242825W), 01 Apr 2010

Nb Ris Baldev Raj (JC-242832M), 23 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Haripal Singh (JC-242850P), 25 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Charanjit Singh (JC-242885L), 13 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shish Ram (JC-242886N), 13 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Krishan Singh (JC-242897A), 08 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Maneger Singh (JC-242901X), 15 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ranvir (JC-242919N), 25 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mohinder Singh (JC-242921L), 01 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Veer Singh (JC-242945P), 20 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ganganna H (JC-242975M), 23 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 12 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Megh Singh Rajput (JC-242983L), 20 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ashok Kumar Singh (JC-242991K), 14 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Chanan Singh Bhati (JC-242996H), 01 Apr 2010

Nb Ris Arjun Singh (JC-243057M), 02 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surjeet Singh (JC-243096L), 27 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Suresh Kumar (JC-243121Y), 21 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raghubir Singh (JC-243134W), 15 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rama Krishnan T (JC-243136F), 29 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 11 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ranjit Kumar (JC-243163L), 20 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Karambir Singh (JC-243181N), 01 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Kumar (JC-243191X), 15 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bade Lal (JC-243266K), 18 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Ris

Dfr (Dvr/Opr) Sudhir Kumar (No. 1098889A now JC-244207K), 15 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 29 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Chamkour Singh (No. 1089552W now JC-244217N), 06 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Jaivir Singh (No. 1089828F now JC-244221W), 31 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Jagvir Singh (No. 15463855X now JC-244244X), 02 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Surinder Singh (No. 1098770W now JC-244308X), 01 May 2010

Dfr (Opr/Gnr) Vinod Kumar Singh (No. 1088129K now JC-244305A), 01 May 2010

Dfr (Gnr/Opr) Ravinder Kumar (No. 15462391Y now JC-244333W), 01 Jun 2010

Dfr (Opr/Dvr) Jagroop Singh (No. 1099244K now JC-244343A), 28 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rajesh Singh Tanwa (No. 15461873F now JC-244348Y), 06 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Gurprit Singh (No. 15466376M now JC-244352F), 24 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Chandra Bhan Kuma (No. 1098734L now JC-244365Y), 29 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Kumbhar Ankhush N (No. 1099434W now JC-244388A), 29 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) B Venkat Raj (No. 15461662Y now JC-244390X), 29 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Cnr/Opr) Jaspal Singh (No. 1089943F now JC-244393L), 28 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Gajender Singh (No. 1098694P now JC-244396Y), 01 Jun 2010

Dfr (Opr/Gnr) Rajneesh Kumar (No. 1098750H now JC-244398K), 02 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Samir Kumar Kundu (No. 1088512H now JC-244399M), 01 Jun 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Shyam Sunder Shar (No. 1089383A now JC-244400W), 01 Jun 2010

Dfr (Dvr/Opr) Sekhar G (No. 15461411P Now JC-244412L), 26 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) G Munisamy (No. 1099761F now JC-244414W), 01 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Parmjit Singh (No. 15461037X now JC-244417K), 29 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) S M Ravi (No. 1088462H Now JC-244418M), 19 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 06 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shankar Jee (No. 1099016F now JC-244421M), 01 Jun 2010

Dfr (Dvr/Opr) Prosanta Kumar SA (No. 1099124L now JC-244422P), 01 Jun 2010

Dfr (Dvr/Opr) Tarsem Lal (No. 15462615N now JC-244429Y), 07 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Harmilash Singh (No. 15462976M now JC-244430N), 05 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shailendra Kumar (No. 15463220Y now JC-244431W), 05 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Murari Lal (No. 15463693X now JC-244432Y), 05 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Sunil Kumar (No. 15466690P now JC-244434K), 05 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Balbir Singh (No. 1099757Y now JC-244435M), 08 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Sunil Kumar Samant (No. 15461456P now JC-244440X), 05 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 23 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Opr/Gnr) Md Meraj Khan (No. 1098838M now JC-244351Y), 27 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Opr/Gnr) Jagvir (No. 1089879P now JC-244353K), 10 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Gnr/Opr) Gurminder Singh (No. 1089979A now JC-244355P), 15 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Gnr/Dvr) Nirmal Singh (No. 1098649H now JC-244356X), 15 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Gnr) Gurmeet Singh (No. 1098732A now JC-244357A), 17 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Gnr/Dvr) Gurjant Singh Sand (No. 1099090H now JC-244358H), 17 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Opr/Dvr) Surendra Singh (No. 1099522M now JC-244361H), 13 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Opr) Rumail Singh (No. 15462023K now JC-244363N), 25 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Gnr/Dvr) OM Prakash Jakhar (No. 1089886L now JC-244366F), 16 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Opr/Gnr) Brijesh Yadava (No. 1089914M now JC-244371M), 16 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Opr/Gnr) Ranjit Singh (No. 15463962Y now JC-244370K), 14 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Opr) Bhim Singh (No. 15461818L now JC-244328L), 03 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Opr) Dinesh Kumar Singh (No. 1099710N now JC-244385M), 13 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Opr/Dvr) Kulwant Singh (No. 15462981X now JC-244383F), 06 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Gnr) Manohar Singh (No. 1099135X now JC-244386P), 15 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Opr) Ravinder Singh (No. 15464241F now JC-244389H), 22 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Gnr) Ramesh Yadav (No. 15461806W now JC-244392H), 18 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Gnr) Ameda Ram (No. 1099179P now JC-244394H), 15 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Opr/Gnr) Mahipal Singh Jakha (No. 1099256Y now JC-244395W), 15 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr/Gnr) Jai Bhagwan (No. 1089125A now JC-244411H), 20 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Opr/Gnr) Rathod Waman Marc (No. 1099629F now JC-244416F), 25 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Bijay Kumar Dutta (No. 1099518K now JC-244419P), 09 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 07 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Suresh (No. 15461060L now JC-244446Y), 06 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Narinder Singh (No. 15461186L now JC-244448K), 02 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Jasbir Singh (No. 15461315A now JC-244449M), 05 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Bharat Singh (No. 1069292W now JC-244471X), 08 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Gurinder Singh (No. 1099285N now JC-244479K), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Pawan Kumar (No. 15461602K now JC-244485X), 01 Jul 2010

Dfr (Opr/Dvr) Loitongbam Binod Kumar Singh (No. 15461661W now JC-244486A), 02 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Rambhawan Kushwa (No. 1098755F now JC-244490H), 01 Jul 2010

Dfr (Dvr/Opr) Shiv Sevak Patel (No. 1099511A now JC-244472A), 12 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Megh Singh (No. 15464195X now JC-244487H), 08 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Jagjeet Singh (No. 15464290K now JC-244489N), 08 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Rajpal Singh Naurk (No. 1098920F now JC-244491L), 01 Jul 2010

Dfr (Opr/Gnr) Shankar Mahto (No. 15463548A now JC-244498P), 12 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Unnikrishanan P V (No. 15464677M now JC-244506H), 25 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Hakam Ali Khan (No. 1099010A now JC-244501K), 05 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 19 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Manohar Lal (No. 15463380Y now JC-244505A), 10 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Parimal Ghosh (No. 1099407M now JC-244510L), 07 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Divakaran P (No. 1089451H now JC-244511N), 05 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Jitendra Singh (No. 1088638W now JC-244513Y), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Anil Kumar K K (No. 1098700X now JC-244514F), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Surgyan Singh (No. 1099186L now JC-244517P), 13 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Palekar Suresh Gulab Rao (No. 15461733P now JC-244518X), 12 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Sohan Lal (No. 1088105A now JC-243878F), 06 Nov 2009*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Parbhane Nawnath Genaji (No. 1099253L now JC-244144M), 08 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Rakesh Kumar Urmaliya (No. 15463159A now JC-244387X), 07 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr {Sowrd (GD)} Raybhan Tate Rao Nirmal (No. 1088785L now JC-244264L), 05 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rakesh Chandra (No. 1099510X now JC-244320Y), 12 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Surjit Singh (No. 1099295X now JC-244316W), 02 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 17 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Cheedi Singh (No. 1098613K now JC-244327H), 01 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Virendra Pratap Yadav (No. 1089918H now JC-244324P), 19 Jun 2010*

- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Gnr) Jagat Pal (No. 15463030M now JC-244330H), 14 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Gnr) Kanhaiya Lal Pandey (No. 15463224P now JC-244331L), 14 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Gnr) Janak Raj (No. 1098872M now JC-244344H), 10 May 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Opr) Muneendra Singh Tomar (No. 15461917N now JC-244349F), 11 May 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Opr/Dvr) Seesh Ram Bhagod (No. 15461499K now JC-244350W), 12 May 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 28 Mar 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Opr) Satrugan Singh Tomar (No. 15461205L now JC-244362L), 03 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Gnr/Opr) Rajinder Singh (No. 15461004M now JC-244368M), 16 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Opr) Rajendra Singh (No. 15461986K now JC-244401Y), 01 Jun 2010
- Dfr (Dvr/Gnr) Gajendra Singh (No. 15462242L now JC-244402F), 01 Jun 2010
- Dfr (Opr/Dvr) Bijendra Singh (No. 15464266N now JC-244408H), 25 May 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Opr/Gnr) Rambir Singh (No. 1098861A now JC-244410A), 25 May 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Opr) V Stephen (No. 15467434M now JC-244415Y), 25 May 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Gnr) Suresh Kumar (No. 1089131N now JC-244420K), 01 Jun 2010
- Dfr (Opr/Dvr) Sumit Kumar Ghosh (No. 15462861Y now JC-244436F), 07 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Gnr/Opr) P Seenivasagam (No. 15462720K now JC-244437X), 07 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Gnr) Himanshu Mondal (No. 15462814F now JC-244438A), 07 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Opr) SP Mohan (No. 15462914M now JC-244439H), 09 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Gnr/Dvr) M Chandra Sekaran (No. 1089966H now JC-244441A), 08 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Opr/Dvr) Nimbalkar Anil Hansraj (No. 1089980P now JC-244442H), 08 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Opr/Gnr) Tej Bhan Singh (No. 1089881M now JC-244451K), 14 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Dvr/Opr) Somvir (No. 15463227H now JC-244452M), 14 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Gnr/Opr) Vikarm Singh (No. 15463218F now JC-244453P), 10 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Opr/Gnr) Mahendra Singh (No. 15462665Y now JC-244454X), 12 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 16 May 2010 without effect on pay and allowances)
- Dfr (Gnr/Opr) Maha Ram (No. 1089902X now JC-244455A), 12 Jun 2010*
- *(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kalyan Vishnoi (No. 1089373W now JC-244456H), 10 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Shri Krishan (No. 1089416A now JC-244457L), 10 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Angrej Singh (No. 1089019F now JC-244322K), 06 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Narender Singh Shekhawa (No. 15465755L now JC-244329N), 26 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Balvant Singh (No. 15462651Y now JC-244407A), 01 Jul 2010

Dfr (Opr/Gnr) Anand Singh (No. 1098535L now JC-244423X), 01 Jul 2010

Dfr (Gnr/Opr) Padam Singh Rathore (No. 1098589K now JC-244424A), 01 Jul 2010

Dfr (Dvr/Opr) Shankar Singh Shekhawat (No. 15455367A now JC-244453Y), 26 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Krishan Pal (No. 15461042H now JC-244465K), 18 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Satpal Singh (No. 15461034K now JC-244466M), 18 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Prem Singh (No. 15461123H now JC-244467P), 19 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Rajendra Singh (No. 15451108N now JC-244468X), 18 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Indra Pal Singh (No. 1098775P now JC-244403K), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Sukhchain Singh (No. 1088923F now JC-244404M), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Ramesh Kumar (No. 1099294P now JC-244405P), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Sukhviri Singh (No. 1089536Y now JC-244406X), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rambir Singh (No. 1089323L now JC-244478F), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Jagtar Singh (No. 15461052M now JC-244496K), 04 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Pargat Singh (No. 15461153A now JC-244497M), 04 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kana Ram Jat (No. 1099011H now JC-244499X), 18 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 05 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Upendra Singh Bhadoriya (No. 15463071W now JC-244502M), 08 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 19 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Karmjit Singh (No. 15451184A now JC-244503F), 04 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Ashwani Kumar (No. 1088968F now JC-244507L), 08 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 18 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Ardhi Venu Gopal Rao (No. 1089856N now JC-244124Y), 01 Apr 2010

Dfr Tejpal (No. 1089908Y now JC-244158M), 01 Apr 2010

Dfr Jille Singh (No. 1098600M now JC-244160K), 01 Apr 2010

Dfr Satish Kumar (No. 15461299N now JC-244160K), 01 Apr 2010

Dfr Mungde Bhimrao Hanmantrao (No. 15461448W now JC-244166L), 01 Apr 2010

Dfr Dilip Singh (No. 15461094Y now JC-244169Y), 01 Apr 2010

Dfr Virender Kumar (No. 1089776W now JC-244170N), 01 Apr 2010

Dfr Karmjit Singh (No. 1098648A now JC-244171W), 01 Apr 2010

Dfr Karanbir Singh (No. 15461079K now JC-244172Y), 01 Apr 2010

Dfr Balbir Singh (No. 15463948M now JC-244204W), 27 Mar 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr Kalyan Singh (No. 15464140N now JC-244206F), 01 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr Kale Savata Babu (No. 15462889Y now JC-244210K), 06 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Varinderpal Singh (No. 1089660A now JC-244211M), 12 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Gurmukh Singh (No. 15465004K now JC-244212P), 05 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Mumtaj Ali (No. 1089159N now JC-244214A), 05 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Om Prakash (No. 1089486Y now JC-244215H), 05 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Satheesh Kumar KN (No. 1089544X now JC-244216L), 05 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Suresh Kumar (No. 1089618F now JC-244218W), 05 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Sushil Kumar Maity (No. 1089640M now JC-244219Y), 05 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Sukhwinder Singh (No. 1089806H now JC-244220N), 05 Apr 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Satya Nanda Mahanta (No. 1099397N now JC-244222Y), 05 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Sujan Singh (No. 1088954F now JC-244232F), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Bhim Raj (No. 15461581Y now JC-244237F), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajbir Singh (No. 15461594W now JC-244239M), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajesh Kumar (No. 15461945A now JC-244240F), 01 Apr 2010*

Dfr Rakesh Kumar Jaswal (No. 15462570Y now JC-244247L), 01 Apr 2010*

Dfr Karamjeet Singh (No. 15466011M now JC-244255K), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Narinder Singh (No. 15466021W now JC-244256M), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Ajai Singh (No. 15462839N now JC-244259A), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Hakam Singh (No. 15461996N now JC-244265N), 01 Apr 2010*

Dfr Gaj Raj Singh (No. 1087997K now JC-244268F), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Suresh Kumar (No. 1099543H now JC-244321F), 12 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Kuldip Singh (No. 1089079W now JC-244323M), 05 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Surjit Singh (No. 1089644H now JC-244142F), 20 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Tarsem Singh (No. 15462420H now JC-244149L), 01 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 29 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Harvir Singh (No. 15461069A now JC-244152L), 30 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Vijay Kumar (No. 1099269W now JC-244162P), 25 Feb 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr Dwarapu Reddy RN Rao (No. 15461557H now JC-244167N), 01 May 2010*

Dfr Kuldip Singh (No. 1087217N now JC-244185W), 01 Apr 2010*

Dfr Satyabir (No. 1087267Y now JC-244188K), 01 Apr 2010*

Dfr Kaoshlesh Verma (No. 1099499K now JC-244189M), 01 May 2010*

Dfr Vijay Singh (No. 15464119L now JC-244205Y), 17 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr Pawan Kumar Rathore (No. 1099424M now JC-244223F), 12 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 12 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Bihar Singh (No. 15461649P now JC-244224K), 11 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 12 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Muruganandam S (No. 1099595Y now JC-244233L), 05 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Naresh Kumar (No. 1088385Y now JC-244236Y), 16 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Vijay Singh (No. 15462868H now JC-244241K), 01 Apr 2010*

Dfr Ashok Kumar (No. 1099703X now JC-244242M), 01 Apr 2010*

Dfr Babu Ram Bhadiyar (No. 15463934M now JC-244245A), 06 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Birendra Kumar (No. 15461379L now JC-244248N), 01 May 2010*

Dfr Thirunavukkarasu (No. 1099589L now JC-244249W), 01 May 2010*

Dfr Megh Singh (No. 15462643A now JC-244250L), 01 May 2010*

Dfr Bhosale Arun Tanaji (No. 1088340Y now JC-244251N), 01 May 2010*

Dfr Rajole Babruwan Tippa Reddy (No. 1088314X now JC-244252W), 01 May 2010*

Dfr Bhola Singh (No. 1088482W now JC-244253Y), 01 May 2010*

Dfr Suresh Babu CG (No. 15461308K now JC-244263H), 14 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Siyyadri Nageswara Rao (No. 1099485K now JC-244282N), 10 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Yallappa Budihal (No. 1099539A now JC-244285F), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr R Perumal (No. 1099749A now JC-244286K), 03 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Uday Singh (No. 1099742W now JC-244301N), 11 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr P Pitchaimani (No. 15462501H now JC-244303Y), 23 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Basant Singh (No. 1098870F now JC-244304F), 07 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Gurdev Singh (No. 15463091K now JC-244310P), 12 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Surjeet Singh (No. 1089695W now JC-244311X), 22 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr Gajender Singh Sekhawat (No. 15462231Y now JC-244312A), 06 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Chinna Sami G (No. 15463304M now JC-244313H), 06 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Bikaramjit Singh (No. 15461182P now JC-244325X), 01 May 2010*

Dfr Kshiroda Kumar Khatua (No. 1089757L now JC-244326A), 01 May 2010*

Dfr Warudkar Netaji Kerba (No. 1087005H now JC-244335F), 22 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Narendra Singh (No. 1088278X now JC-244336K), 09 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Birendra Singh (No. 1089568F now JC-244337M), 09 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Dilip Boruah (No. 1089779K now JC-244338P), 09 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Banbari Singh (No. 1098774M now JC-244339X), 21 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Santosh Kumar Singh (No. 15461102M now JC-244340M), 21 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Mahaveer Singh (No. 15461567M now JC-244341P), 21 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Yashvir Singh (No. 1098806K now JC-244342X), 20 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajesh Kumar Shukla (No. 1089364P now JC-244345L), 24 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr Anirudh Kumar Gupta (No. 1089399L now JC-244346N), 24 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr Suraj Singh (No. 1089413M now JC-244347W), 24 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Brajesh Kumar Sharma (No. 15462223A now JC-244354M), 14 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Naresh Singh (No. 1099125N now JC-244359L), 02 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Krishan Narayan Singh (No. 1099126W now JC-244360A), 02 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Kotwal Singh (No. 1084954K now JC-244364W), 02 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 04 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Dasharath Lal (No. 1089919L now JC-244369P), 01 May 2010*

Dfr Balvir Singh (No. 15461620M now JC-244372P), 14 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Baneshwar Gupta (No. 15461440K now JC-244373X), 01 May 2010*

Dfr Mukhtyar Singh (No. 15461502Y now JC-244374A), 04 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Lakhwinder Singh (No. 1089702F now JC-244375H), 07 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Rajendra Kumar (No. 1099318N now JC-244376L), 03 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Satya Pal Singh (No. 15462369N now JC-244377N), 01 May 2010*

Dfr Mahender Singh Tomar (No. 15462370H now JC-244378W), 01 May 2010*

Dfr Pawan Kumar (No. 15463253K now JC-244379Y), 01 May 2010*

Dfr Dharamvir Singh (No. 15461318N now JC-244380N), 01 May 2010*

Dfr Chandra Pal Singh (No. 15461878A now JC-244381W), 03 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr Amar Singh (No. 15464124W now JC-244382Y), 01 May 2010

Dfr Mehar Singh (No. 15461671A now JC-244384K), 01 May 2010

Dfr (Dvr/Opr) Benny TM (No. 15461457X now JC-244413N), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Ashok Kumar Singh (No. 1099726Y now JC-244444N), 18 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Sushil Kumar (No. 1099728K now JC-244445W), 09 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) N Nagaraj Reddy (No. 1099699A now JC-244464F), 28 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 17 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Mohammad Muqasiti (No. 15461608L now JC-244470P), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Rajan Talekar (No. 15461990M now JC-244474L), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 19 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Gurpreet Singh Randhawa (No. 15466698F now JC-244473H), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Harmail Singh (No. 15467367M now JC-244477Y), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Bhupinder Singh (No. 15467294L now JC-244475N), 23 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 25 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) B Ranga Swamy Reddy (No. 15468161F now JC-244476W), 14 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Nichhatar Singh (No. 15461185H now JC-244480Y), 01 Jul 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Manjit Singh (No. 15461202X now JC-244481F), 01 Jul 2010

Dfr (Opr/Dvr) Jai Pal (No. 1099707N now JC-244482K), 01 Jul 2010

Dfr (Opr/Gnr) Ravinder Singh (No. 15461513L now JC-244483M), 14 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Jetendra Kumar (No. 1099531N now JC-244484P), 07 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Prem Singh Bhadouriya (No. 1089156A now JC-244493W), 22 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Karamvir Singh (No. 1099054X now JC-244521X), 14 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Parminder Singh (No. 1098964Y now JC-244522A), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Sushil Kumar (No. 15464650P now JC-244523H), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Bhupendra Kumar (No. 1089261W now JC-244524L), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Jaya Krishnan P (No. 1089289W now JC-244525N), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Ramendra Kumar (No. 15461773W now JC-244526W), 19 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Harvinderjit Singh (No. 15462065W now JC-244527Y), 14 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Subhash Chander (No. 15461675W now JC-244529K), 20 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Teekam Singh (No. 15461692W now JC-244531F), 19 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Daljit Singh (No. 1098675K now JC-244535X), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Waryam Singh (No. 1099444A now JC-244537H), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Rameshwar Lal Jat (No. 1098726M now JC-244539N), 20 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Manjit Singh (No. 15461839F now JC-244541L), 20 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Mallu Sreenivasa Reddy (No. 15462013A now JC-244542N), 19 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 626, dated 11th October 2010—The President is pleased to make the following promotions:—

Sh. VO Janardhanan, Director of ORDAQA, Bangalore as Deputy Director General (South Zone), Bangalore w.e.f. 11 May 2010 (FN)

Sh. GS Ahluwalia, Director of ORDAQA, Koraput as Deputy Director General (HQ), New Delhi w.e.f. 24 May 2010 (FN)

VINEET SAINI
Under Secy

No. 627, dated 12th October 2010—The President is pleased to retire Shri Dal Chand, Section Officer (DoB : 09 Aug 1950 & SQ-2003), Ministry of Defence from Government Service with effect from 31st Aug 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Smt. Prem Jeet Kumar, Section Officer (DoB : 15 Jul 1950 & SQ-2006), Ministry of Defence from Government Service with effect from 31st Jul 2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI
Under Secy

No. 628, dated 12th October 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col SK Dogra (TA-41936X), Infantry, 30 Apr 2010 (AN)

JAI RAJ
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 629, dated 12th October 2010—Consequent upon
attaining the age of superannuation, Shri MK Pande, Joint
Director (Admin), DRDO HQ has been retired from service

with effect from 31st August 2010 (AN) and transferred
to pension establishment with effect from 01 Sept 2010
(FN)

PN REDDY
Addl Director (Pers)